



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>
YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>
CONTACT: 9971932488



PATRIOTIC IAS

DAILY CURRENT AFFAIRS

THE HINDU NEWSPAPER

04 FEBRUARY 2026

YouTube link: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>

PATRIOTIC

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



PCS Special:

04 February

1. Telangana witnesses steady rise in cancer cases; doctors stress early detection
तेलंगाना में कैंसर मामलों में लगातार वृद्धि; डॉक्टर प्रारंभिक पहचान पर ज़ोर

Telangana witnesses steady rise in cancer cases; doctors stress early detection

PCS

Siddharth Kumar Singh
HYDERABAD

Telangana has recorded a steady rise in cancer cases over the past decade, increasing from 40,177 in 2015 to 52,334 in 2024, signalling a growing public health burden in the State. The figures were shared in the Lok Sabha during the Winter Session of Parliament last December.

With World Cancer Day on Wednesday, oncologists say the upward trend highlights the urgent need to strengthen early detection, screening and awareness efforts across Telangana.

"For the first time, more early-stage cancer cases are being seen. That is a good sign," said Nori Datta-



Ahead of World Cancer Day on February 4, oncologists have called for need to strengthen awareness efforts. GETTY IMAGES

treyyudu, Adviser to the Telangana government on cancer care.

According to him, patients are increasingly seeking medical advice at earlier stages rather than

waiting until Stage 3 or Stage 4.

At the MNJ Institute of Oncology and Regional Cancer Centre in Hyderabad, doctors say the increase is evident in the dai-

ly influx of patients.

Sandhya Rani Nippani, associate professor of Radiation Oncology at MNJ, said the hospital registers around 100 new cancer cases each day. These include both paediatric and adult patients, as well as blood malignancies and solid tumours.

Among adults, head and neck cancers linked to tobacco chewing continue to be highly prevalent in the region. "We see very advanced head and neck cancer patients. Breast cancer cases are also common. Although cervical cancer is largely preventable and curable if detected early, many women are reaching the hospital in Stage 3 or Stage 4," she said.

Telangana witnesses steady rise in cancer cases; doctors stress early detection

तेलंगाना में कैंसर मामलों में लगातार वृद्धि; डॉक्टर प्रारंभिक पहचान पर ज़ोर

- Telangana witnesses steady rise in cancer cases; doctors stress early detection
तेलंगाना में कैंसर मामलों में लगातार वृद्धि; डॉक्टर प्रारंभिक पहचान पर ज़ोर
- Telangana has recorded a steady rise in cancer cases over the past decade, increasing from **40,177** in **2015** to **52,334** in **2024**, signalling a growing public health burden in the State. पिछले एक दशक में तेलंगाना में कैंसर मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, जो **2015** में **40,177** से बढ़कर **2024** में **52,334** हो गई, जो राज्य में बढ़ते सार्वजनिक स्वास्थ्य बोझ का संकेत है
- The figures were shared in the **Lok Sabha** during the **Winter Session of Parliament** last **December**. ये आंकड़े पिछले दिसंबर में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में साझा किए गए
- With **World Cancer Day on Wednesday**, oncologists say the upward trend highlights the urgent need to strengthen **early detection, screening and awareness efforts** across Telangana. बुधवार को विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर, ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि यह बढ़ता रुझान तेलंगाना में



प्रारंभिक पहचान, स्क्रीनिंग और जागरूकता प्रयासों को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है

- “For the first time, more early-stage cancer cases are being seen. That is a good sign,” said **Nori Dattatreyyudu**, Adviser to the **Telangana government** on cancer care.
“पहली बार, प्रारंभिक चरण के कैंसर मामलों की संख्या अधिक देखी जा रही है। यह एक अच्छा संकेत है,” तेलंगाना सरकार के कैंसर देखभाल सलाहकार नोरी दत्तात्रेयुडु ने कहा
- According to him, patients are increasingly seeking medical advice at earlier stages rather than waiting until **Stage 3** or **Stage 4**.
उनके अनुसार, मरीज **स्टेज 3** या **स्टेज 4** तक इंतज़ार करने के बजाय अब पहले चरणों में ही चिकित्सकीय सलाह ले रहे हैं
- At the **MNJ Institute of Oncology and Regional Cancer Centre** in **Hyderabad**, doctors say the increase is evident in the daily influx of patients.
हैदराबाद स्थित **एमएनजे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड रीजनल कैंसर सेंटर** में डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों की **दैनिक आवक** में यह वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है
- **Sandhya Rani Nippani**, associate professor of **Radiation Oncology** at **MNJ**, said the hospital registers around **100** new cancer cases each day.
एमएनजे में **रेडिएशन ऑन्कोलॉजी** की एसोसिएट प्रोफेसर **संध्या रानी निप्पानी** ने कहा कि अस्पताल में प्रतिदिन लगभग **100** नए कैंसर मामले दर्ज होते हैं
- These include both **paediatric** and **adult** patients, as well as **blood malignancies** and **solid tumours**.
इनमें **बाल** और **वयस्क** दोनों प्रकार के मरीज शामिल हैं, साथ ही **रक्त कैंसर** और **ठोस ट्यूमर** भी
- Among adults, **head and neck cancers linked to tobacco chewing** continue to be highly prevalent in the region.
वयस्कों में, **तंबाकू चबाने** से जुड़े **सिर और गर्दन के कैंसर** इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित बने हुए हैं
- “We see very advanced head and neck cancer patients. **Breast cancer** cases are also common. Although **cervical cancer is largely preventable and curable if detected early**, many women are reaching the hospital in **Stage 3** or **Stage 4**,” she said.
उन्होंने कहा, “हम **सिर और गर्दन के कैंसर** के बहुत उन्नत मामलों को देखते हैं। **स्तन कैंसर** के मामले भी आम हैं। हालांकि **सर्वाइकल कैंसर** यदि जल्दी पता चल जाए तो काफी हद तक **रोकथाम योग्य** और **उपचार योग्य** है, फिर भी कई महिलाएं **स्टेज 3** या **स्टेज 4** में अस्पताल पहुंच रही हैं”

GS Paper 1: Society	
TOPICS COVERED	04 February 2026
1.	84% waste-pickers from SC, ST, OBC groups: govt 84% कचरा बीनने वाले SC, ST, OBC वर्गों से: सरकार



84% waste-pickers from SC, ST, OBC groups: govt.

GS I: Society
Abhinav Lakshman
NEW DELHI

The Union government on Tuesday released data for the first time on the ongoing enumeration of waste-pickers across the country, showing that a total of 1.52 lakh such workers had been profiled and validated so far in urban areas of 35 States and Union Territories. At the national level, 84.5% of overall waste-pickers were from communities in the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and the Other Backward Classes, while 10.7% were from communities in the General category.

At the State and Union Territory level, there were some outliers, where waste-pickers from the General category constituted a significant majority. For instance, in Delhi and Goa, those from General category communities outnumbered those from the SC, ST, and OBC communities put together. In West Bengal, General category

Waste-picking labour profile

This enumeration of sewer and septic tank workers and waste pickers was part of the govt.'s NAMASTE scheme

- Out of 1.52 lakh profiled waste pickers, 84.5% were from SC, ST, or OBC communities
- However, in Delhi and Goa, a majority of such workers were from General communities
- About 48.7% of workers are women, 51.3% are men, and 0.007% are transgender people
- On Tuesday, the Social Justice Ministry said that 859 people had died due to cleaning of sewers and septic tanks since 2014



workers constituted 42.4% of all those profiled and validated.

The Ministry of Social Justice and Empowerment tabled the data in Parliament on Tuesday. The enumeration exercise is part of the Ministry's NAMASTE scheme. It is enumerating sewer and septic tank workers and waste-pickers across the country, to have them formally recognised by urban local bodies and provide them with protec-

tive equipment. The scheme aims at eradicating deaths due to hazardous cleaning of sewers and septic tanks.

The data showed that a total of 1.52 lakh waste-pickers had been profiled and validated by urban local bodies as part of this exercise till January 23 this year. Of these, about 48.7% are women (74,427), 51.3% are men (78,374), and 0.007% transgender people (12).

Social category data

showed that of the total workers profiled, 60.3% were from the SC communities (92,089), 13.7% from the OBC communities (20,954), and 10.5% from the ST communities. It also said 16,329 waste-pickers (10.7%) were from communities classified under the General category.

In Delhi and Goa, however, the majority of waste-pickers were from the General category. In Delhi, 4,289 of more than 6,500 waste-pickers profiled were from that category, and the case was similar in Goa, where, of the total 1,286 workers profiled, 729 were from General category communities.

Under the NAMASTE scheme, waste-pickers have been defined as people "informally" engaged in "collection and recovery of reusable and recyclable solid waste from streets, bins, material recovery facilities, processing and waste disposal facilities for sale to recyclers directly or

through intermediaries to earn their livelihood".

'Other' category

The data, tabled by Minister of State for Social Justice Ramdas Athawale, also said that 7,402 workers were from "Other" communities. The data was released in response to a question from Erode MP K.E. Prakash from the DMK on the NAMASTE scheme, which had recently included enumeration of waste-pickers in its objectives.

The scheme has so far enumerated about 89,000 sewer-entry workers and septic tank workers, 95.8% of them men. Parliament data from December 2024 showed that among the sewer and septic tank workers profiled till then, 91.95% were from SC, ST, and OBC backgrounds, while about 8.05% were from General category communities. However, State-level data of that time has not yet been made available.

84% waste-pickers from SC, ST, OBC groups: govt 84% कचरा बीनने वाले SC, ST, OBC वर्गों से: सरकार

- **84% waste-pickers from SC, ST, OBC groups**
84% कचरा बीनने वाले SC, ST, OBC वर्गों से: सरकार
- The **Union government** on **Tuesday** released data for the first time on the ongoing enumeration of **waste-pickers** across the country, showing that a total of **1.52 lakh** such workers had been profiled and validated so far in urban areas of **35 States and Union Territories**.
केंद्र सरकार ने **मंगलवार** को देशभर में **कचरा बीनने वालों** की चल रही गणना पर पहली बार आंकड़े जारी किए, जिसमें दिखाया गया कि अब तक **35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों** के शहरी क्षेत्रों में कुल **1.52 लाख** ऐसे श्रमिकों की प्रोफाइलिंग और सत्यापन किया गया है
- At the national level, **84.5%** of overall waste-pickers were from the **Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and the Other Backward Classes**, while **10.7%** were from communities in the **General category**.
राष्ट्रीय स्तर पर, कुल कचरा बीनने वालों में से **84.5% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग** से थे, जबकि **10.7% सामान्य वर्ग** की समुदायों से थे
- At the **State and Union Territory level**, there were some outliers, where waste-pickers from the **General category** constituted a significant majority.
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर कुछ अपवाद भी थे, जहां **सामान्य वर्ग** के कचरा बीनने वाले बड़ी संख्या में थे
- For instance, in **Delhi and Goa**, those from **General category communities** outnumbered those from the **SC, ST, and OBC communities** put together.
उदाहरण के लिए, **दिल्ली और गोवा** में **सामान्य वर्ग** के समुदायों से आने वाले कचरा बीनने वालों की संख्या **SC, ST और OBC समुदायों** को मिलाकर भी अधिक थी



- In **West Bengal**, **General category workers** constituted **42.4%** of all those profiled and validated.
पश्चिम बंगाल में, सामान्य वर्ग के श्रमिक प्रोफाइल और सत्यापित किए गए कुल लोगों में **42.4%** थे
- The **Ministry of Social Justice and Empowerment** tabled the data in **Parliament on Tuesday**.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मंगलवार को संसद में ये आंकड़े पेश किए
- The enumeration exercise is part of the Ministry's **NAMASTE scheme**.
यह गणना प्रक्रिया मंत्रालय की **NAMASTE योजना** का हिस्सा है
- It is enumerating **sewer and septic tank workers** and **waste-pickers** across the country, to have them formally recognised by **urban local bodies** and provide them with **protective equipment**.
इसके तहत देशभर में **सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों** तथा **कचरा बीनने वालों** की गणना की जा रही है, ताकि उन्हें **शहरी स्थानीय निकायों** द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दी जा सके और **सुरक्षा उपकरण** उपलब्ध कराए जा सकें
- The scheme aims at eradicating deaths due to **hazardous cleaning of sewers and septic tanks**.
इस योजना का उद्देश्य **सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई** के कारण होने वाली मौतों को समाप्त करना है
- The data showed that a total of **1.52 lakh waste-pickers** had been profiled and validated by **urban local bodies** as part of this exercise till **January 23** this year.
आंकड़ों से पता चला कि इस वर्ष **23 जनवरी** तक इस अभ्यास के तहत **शहरी स्थानीय निकायों** द्वारा कुल **1.52 लाख कचरा बीनने वालों** की प्रोफाइलिंग और सत्यापन किया गया
- Of these, about **48.7% are women (74,427)**, **51.3% men (78,374)**, and **0.007% transgender people (12)**.
इनमें से लगभग **48.7% महिलाएं (74,427)**, **51.3% पुरुष (78,374)**, और **0.007% ट्रांसजेंडर व्यक्ति (12)** हैं

Social category data सामाजिक श्रेणी के आंकड़े

- Social category data showed that of the total workers profiled, **60.3%** were from the **SC communities (92,089)**, **13.7%** from the **OBC communities (20,954)**, and **10.5%** from the **ST communities**.
सामाजिक श्रेणी के आंकड़ों में दिखाया गया कि कुल प्रोफाइल किए गए श्रमिकों में से **60.3% SC समुदायों (92,089)** से, **13.7% OBC समुदायों (20,954)** से, और **10.5% ST समुदायों** से थे
- It also said **16,329 waste-pickers (10.7%)** were from communities classified under the **General category**.
इसमें यह भी कहा गया कि **16,329 कचरा बीनने वाले (10.7%) सामान्य वर्ग** में वर्गीकृत समुदायों से थे
- In **Delhi** and **Goa**, however, the majority of waste-pickers were from the **General category**.
हालांकि **दिल्ली** और **गोवा** में अधिकांश कचरा बीनने वाले **सामान्य वर्ग** से थे
- In **Delhi**, **4,289** of more than **6,500 waste-pickers** profiled were from that category, and the case was similar in **Goa**, where, of the total **1,286 workers** profiled, **729** were from **General category communities**.
दिल्ली में प्रोफाइल किए गए **6,500 से अधिक कचरा बीनने वालों** में से **4,289** उसी श्रेणी से थे, और **गोवा** में भी स्थिति समान थी, जहां कुल **1,286 श्रमिकों** में से **729 सामान्य वर्ग समुदायों** से थे
- Under the **NAMASTE scheme**, waste-pickers have been defined as people “**informally**” engaged in “**collection and recovery of reusable and recyclable solid waste from streets, bins, material recovery facilities, processing and waste disposal facilities for sale to recyclers directly or through intermediaries to earn their livelihood**”.
NAMASTE योजना के तहत, कचरा बीनने वालों को ऐसे लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जो “**अनौपचारिक रूप से**” “**सड़कों, डिब्बों, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं, प्रसंस्करण और कचरा निपटान सुविधाओं से पुनः उपयोग योग्य और पुनर्चक्रण योग्य ठोस कचरे के संग्रह और पुनर्प्राप्ति में लगे होते हैं, ताकि सीधे या बिचौलियों के माध्यम से पुनर्चक्रणकर्ताओं को बेचकर आजीविका कमा सकें**”



‘Other’ category ‘अन्य’ श्रेणी

- The data, tabled by **Minister of State for Social Justice Ramdas Athawale**, also said that **7,402 workers** were from “Other” communities.
सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में यह भी कहा गया कि **7,402 श्रमिक** “अन्य” समुदायों से थे
- The data was released in response to a question from **Erode MP K.E. Prakash** from the **DMK** on the **NAMASTE scheme**, which had recently included enumeration of waste-pickers in its objectives.
यह आंकड़े **DMK** के **ईरोड सांसद के.ई. प्रकाश** द्वारा **NAMASTE योजना** पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में जारी किए गए, जिसमें हाल ही में कचरा बीनने वालों की गणना को अपने उद्देश्यों में शामिल किया गया था
- The scheme has so far enumerated about **89,000 sewer-entry workers and septic tank workers**, **95.8%** of them men.
इस योजना के तहत अब तक लगभग **89,000 सीवर-प्रवेश श्रमिकों और सेप्टिक टैंक श्रमिकों** की गणना की गई है, जिनमें **95.8% पुरुष** हैं
- Parliament data from December 2024** showed that among the sewer and septic tank workers profiled till then, **91.95%** were from **SC, ST, and OBC backgrounds**, while about **8.05%** were from **General category communities**.
दिसंबर 2024 के संसदीय आंकड़ों में दिखाया गया कि तब तक प्रोफाइल किए गए सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों में **91.95% SC, ST और OBC पृष्ठभूमि** से थे, जबकि लगभग **8.05% सामान्य वर्ग समुदायों** से थे
- However, **State-level data** of that time has not yet been made available.
हालांकि, उस समय के **राज्य-स्तरीय आंकड़े** अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं

GS Paper 1: Geography

TOPICS COVERED

04 February 2026

- Sudan military broke siege on key southern city Kadugli: Army chief**
सूडान की सेना ने प्रमुख दक्षिणी शहर कादुगली की घेराबंदी तोड़ी: सेना प्रमुख

BIG SHOT



A drone view shows trees burnt by wildfires in Chubut, Argentina on January 29. The fires have destroyed an area more than twice the size of Buenos Aires and stirred criticism over austerity measures under President Javier Milei that have significantly cut aid resources. REUTERS

A drone view shows trees burnt by wildfires in Chubut, Argentina on January 29. The fires have destroyed an area more than twice the size of Buenos Aires and stirred criticism over austerity measures under President Javier Milei that have significantly cut aid resources.



KHARTOUM

Sudan military broke siege on key southern city Kadugli: Army chief



GS I: Geography: Mapping

REUTERS

The Sudanese Army broke a paramilitary siege on the key southern city of Kadugli on Tuesday, Army chief Abdel Fattah al-Burhan said, in the latest reversal of a paramilitary offensive through the Kordofan region. Kadugli has been besieged for much of Sudan's nearly three-year war between the army and RSF. AFP

Sudan military broke siege on key southern city Kadugli: Army chief
सूडान की सेना ने प्रमुख दक्षिणी शहर कादुगली की घेराबंदी तोड़ी: सेना प्रमुख

• The **Sudanese Army** broke a **paramilitary siege** on the **key southern city Kadugli** on Tuesday, Army chief **Abdel Fattah al-Burhan** said

सूडानी सेना ने मंगलवार को प्रमुख दक्षिणी शहर कादुगली पर लगी अर्धसैनिक घेराबंदी को तोड़ा, सेना प्रमुख अब्देल फत्ताह अल-बुरहान ने कहा

• in the latest reversal of a **paramilitary offensive** through the **Kordofan region**

यह **कोर्डोफान क्षेत्र** में **अर्धसैनिक आक्रमण** के नवीनतम उलटफेर के रूप में हुआ

• **Kadugli** has been **besieged** for much of Sudan's **nearly three-year war** between the **army** and **RSF**

कादुगली सेना और आरएसएफ के बीच सूडान के लगभग तीन वर्ष के युद्ध के अधिकांश समय तक घेराबंदी में रहा है

GS Paper II: Polity,	
TOPICS COVERED	
	04 February 2026
1.	Rahul's speech triggers face-off; 8 MPs suspended राहुल के भाषण से टकराव; 8 सांसद निलंबित
2.	SC has not upheld death penalty in 3 years: report पिछले 3 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की: रिपोर्ट
3.	There is no case for scrapping MPLADS funds MPLADS फंड को खत्म करने का कोई मामला नहीं है
4.	Has the 16th Finance Commission sidelined the States? क्या 16वें वित्त आयोग ने राज्यों को हाशिये पर डाल दिया है?



Rahul's speech triggers face-off; 8 MPs suspended

GS II: Polity

Sandeep Phukan
NEW DELHI

The face-off between the Union government and the Opposition in the Lok Sabha escalated on Tuesday with the suspension of eight Opposition MPs – seven from the Congress and one from the CPI(M) – for the rest of the Budget Session over unruly conduct amid protests over Leader of the Opposition Rahul Gandhi not being allowed to speak on the unpublished memoir of former Army chief General Manoj Naravane (retd).

After the House was adjourned thrice, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju, around 3 p.m., moved a resolution seeking suspension of the eight Opposition MPs for showing “disrespect” to the Chair by tearing and throwing paper at it. The resolution was passed by a voice vote. The proceedings were presided over by



Raising voice: Congress leaders Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and others protest at the Parliament complex on Tuesday. PTI

Dilip Saikia, a BJP MP from Assam.

“The members acted in utter disregard of the House and the authority of the Chair. They tore papers and threw them at the Chair and were named by the Chair for their behaviour,” Mr. Rijiju said while moving the resolution.

The suspended MPs are Gurjeet Singh Aujla, Hibi Eden, C. Kiran Kumar Reddy, Amarinder Singh Raja Warring, Manickam Ta-

gore, Prashant Padole and Dean Kuriakose from the Congress and S. Ventakasan from the CPI(M). Led by Mr. Gandhi, the Congress members then protested outside the Parliament building against his suspension.

In the evening, Mr. Gandhi wrote to Lok Sabha Speaker Om Birla, lodging a strong protest against his being disallowed from speaking on a matter of “national security”, calling

Prime Minister is ‘compromised’, Rahul alleges

NEW DELHI

After not being allowed to speak on the unpublished memoir of former Army chief General Manoj Naravane (retired) in Parliament, Rahul Gandhi alleged that Prime Minister Modi was “compromised and under enormous pressure”. » PAGE 4

it a “blot on our democracy”.

He said as an impartial custodian of the House, it is the Speaker’s constitutional and parliamentary responsibility to safeguard the rights of every member, including those of the Opposition.

‘Blot on democracy’

“For the first time in Parliamentary history, on the behest of the government, the Speaker has been

forced to prevent the Leader of the Opposition from speaking on the President’s Address. This is a blot on our democracy, against which I record my strongest protest.” Mr. Gandhi said in his letter.

The suspensions could further intensify the logjam between the Treasury and the Opposition during the remaining part of the Budget Session, scheduled to end on April 2. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to reply in the Lok Sabha to the Motion of Thanks to President Droupadi Murmu for her address to a joint sitting of Parliament.

Earlier in the day, the Lok Sabha witnessed two adjournments with the Opposition protesting U.S. President Donald Trump’s announcement of the India-U.S. trade deal ahead of Prime Minister Narendra Modi and the alleged demolition drive at the Manikarnika Ghat in Varanasi.

Rahul's speech triggers face-off; 8 MPs suspended

राहुल के भाषण से टकराव; 8 सांसद निलंबित

- Rahul's speech triggers face-off; 8 MPs suspended
राहुल के भाषण से टकराव; 8 सांसद निलंबित
- The face-off between the Union government and the Opposition in the Lok Sabha escalated on Tuesday with the suspension of eight Opposition MPs — seven from the Congress and one from the CPI(M) — for the rest of the Budget Session over unruly conduct amid protests over Leader of the Opposition Rahul Gandhi not being allowed to speak on the unpublished memoir of former Army chief General Manoj Naravane (retd).
मंगलवार को लोकसभा में केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया, जब कांग्रेस के सात और सीपीआई(एम) के एक, कुल आठ विपक्षी सांसदों को बजट सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया गया, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे (सेवानिवृत्त) की अप्रकाशित संस्मरण पर बोलने की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर विरोध के दौरान अशोभनीय आचरण हुआ
- After the House was adjourned thrice, Parliamentary Affairs Minister **Kiren Rijiju**, around **3 p.m.**, moved a resolution seeking suspension of the eight Opposition MPs for showing “disrespect” to the Chair by tearing and throwing paper at it.
सदन के तीन बार स्थगित होने के बाद, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लगभग दोपहर 3 बजे एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कागज़ फाड़कर और फेंककर आसन के प्रति “अनादर” दिखाने पर आठ विपक्षी सांसदों के निलंबन की मांग की गई
- The resolution was passed by a voice vote.
यह प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ
- The proceedings were presided over by **Dilip Saikia, a BJP MP from Assam.**
कार्यवाही की अध्यक्षता असम से भाजपा सांसद दिलीप साँकिया ने की
- “The members acted in utter disregard of the House and the authority of the Chair. They tore papers and threw them at the Chair and were named by the Chair for their behaviour,” Mr. Rijiju said while moving the resolution.
प्रस्ताव पेश करते हुए श्री रिजिजू ने कहा, “सदस्यों ने सदन और आसन के अधिकार की पूरी तरह अवहेलना की। उन्होंने कागज़ फाड़े और उन्हें आसन की ओर फेंका और उनके व्यवहार के लिए उन्हें आसन द्वारा नामित किया गया”
- The suspended MPs are **Gurjeet Singh Aujla, Hibi Eden, C. Kiran Kumar Reddy, Amarinder Singh Raja Warring, Manickam Tagore, Prashant Padole and Dean**



Kuriakose from the Congress and **S. Ventakesan** from the CPI(M).

निलंबित सांसदों में कांग्रेस से गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, सी. किरण कुमार रेड्डी, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, मणिकम टैगोर, प्रशांत पाडोले और डीन कुरियाकोसे, तथा सीपीआई(एम) से एस. वेंटकेशन शामिल हैं

- Led by Mr. Gandhi, the Congress members then protested outside the Parliament building against their suspension.
इसके बाद श्री गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने अपने निलंबन के विरोध में संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया
- In the evening, Mr. Gandhi wrote to Lok Sabha Speaker **Om Birla**, lodging a strong protest against his being disallowed from speaking on a matter of “national security”, calling it a “blot on our democracy”.
शाम को श्री गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर “राष्ट्रीय सुरक्षा” के मुद्दे पर बोलने से रोके जाने के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज किया और इसे “हमारे लोकतंत्र पर धब्बा” बताया
- He said as an impartial custodian of the House, it is the Speaker’s constitutional and parliamentary responsibility to safeguard the rights of every member, including those of the Opposition.
उन्होंने कहा कि सदन के निष्पक्ष संरक्षक के रूप में अध्यक्ष की यह संवैधानिक और संसदीय जिम्मेदारी है कि वे विपक्ष सहित हर सदस्य के अधिकारों की रक्षा करें

‘Blot on democracy’

‘लोकतंत्र पर धब्बा’

- “For the first time in Parliamentary history, on the behest of the government, the Speaker has been forced to prevent the Leader of the Opposition from speaking on the President’s Address. This is a blot on our democracy, against which I record my strongest protest,” Mr. Gandhi said in his letter.
अपने पत्र में श्री गांधी ने कहा, “संसदीय इतिहास में पहली बार, सरकार के कहने पर अध्यक्ष को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोकने के लिए मजबूर किया गया। यह हमारे लोकतंत्र पर धब्बा है, जिसके खिलाफ मैं अपना सबसे कड़ा विरोध दर्ज करता हूँ”
- The suspensions could further intensify the logjam between the Treasury and the Opposition during the remaining part of the Budget Session, scheduled to end on **April 2**.
ये निलंबन कोषागार पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध को बजट सत्र के शेष भाग में और बढ़ा सकते हैं, जो 2 अप्रैल को समाप्त होना निर्धारित है
- Prime Minister **Narendra Modi** is scheduled to reply in the Lok Sabha to the **Motion of Thanks to President Droupadi Murmu** for her address to a joint sitting of Parliament.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के संयुक्त सत्र में दिए गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब लोकसभा में देना है



- Earlier in the day, the Lok Sabha witnessed two adjournments with the Opposition protesting **U.S. President Donald Trump's** announcement of the **India-U.S. trade deal** ahead of Prime Minister Narendra Modi and the alleged demolition drive at the **Manikarnika Ghat in Varanasi**.

SC has not upheld death penalty in 3 years: report

The top court acquitted 10 death row prisoners in 2025; lower courts handed down 1,310 death sentences over the past decade; high rate of acquittals raises concerns about wrongful convictions

GS II: Polity

Ishita Mishra
NEW DELHI

The Supreme Court has not confirmed a single death penalty in the past three years, according to an annual statistics report on death penalties in India, published by the Square Circle Clinic, a criminal justice initiative at the NALSAR University of Law, Hyderabad.

In fact, in 2025, the top court acquitted 10 prisoners who had been on death row, the highest number of such acquittals in the past decade.

The report, which examined death penalty trends across India over the past 10 years, found that the sessions courts handed down 1,310 death sentences nationwide between 2016 and 2025.

"Despite growing judicial scepticism at higher levels," the lower courts sentenced 128 individuals to death in 2025 alone, the report said.

High rate of acquittals

Of the 1,310 death sentences, 842 verdicts were handed down by the High Courts, of which 70 – that

Capital punishment

Examining death penalty trends in India (2016-2025)

1,310 death sentences by Sessions Courts

128 sentenced in 2025

842 death sentences were heard by the High Courts

70 confirmed (8.31%), 285 acquitted, 411 commuted

0 death sentences confirmed by the Supreme Court in the past 3 years

Of 37 HC-confirmed cases decided by SC:

15 acquitted | 14 commuted

574 prisoners on death row (Dec. 31, 2025) — highest since 2016



is, just 8.31% – were confirmed. The High Courts acquitted 285 people on death row, while 411 death sentences were commuted.

The Supreme Court's stance has been even more restrictive, with no death sentence confirmed in the past three years.

Also, in cases where sessions courts imposed death sentences which were confirmed by the High Courts, not a single sentence has yet been affirmed by the Supreme Court.

Of the 37 such death sentences which have been decided by the Supreme Court, 15 resulted in acquit-

tal and 14 were commuted. "What is starkly clear from these figures is that errors at Sessions Courts are not only leading to wrongful imposition of death sentence but are also resulting in wrongful convictions. The high rate of acquittals by the appellate judiciary requires a serious examination of how Sessions Courts deem a case worthy of even a conviction," the report said.

The report also showed that India had 574 prisoners – 550 men and 24 women – on death row as of December 31, 2025. The average time spent on death

row before acquittal was over five years, with some prisoners languishing for nearly a decade before being exonerated.

However, 138 individuals were also removed from death row during the year through acquittals, commutations, or remand orders

One of the report's most alarming findings concerns procedural violations at the sentencing stage.

Despite clear guidelines laid down by the Supreme Court in *Manoj vs State of Madhya Pradesh*, which mandate psychological evaluations, prison conduct reports, and mitigation hearings – which were elevated to a fair trial right requirement in *Vasanta Sampat Dupare vs Union of India* – in 2025, nearly 95% of death sentences in 2025 were imposed without compliance.

Sentencing hearings were frequently conducted within days of conviction, leaving little scope for meaningful defence representation, the report said.

Another emerging trend is the growing use of life imprisonment without remission as an alternative to the death penalty.

SC has

not upheld death penalty in 3 years: report

पिछले 3 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की: रिपोर्ट

- SC has not upheld death penalty in 3 years: report
पिछले 3 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की: रिपोर्ट
- The top court acquitted 10 death row prisoners in 2025; lower courts handed down 1,310 death sentences over the past decade; high rate of acquittals raises concerns about wrongful convictions

शीर्ष अदालत ने 2025 में मृत्युदंड पाए 10 कैदियों को बरी किया; निचली अदालतों ने पिछले एक दशक में 1,310 मृत्युदंड सुनाए; बरी होने की उच्च दर गलत सजा को लेकर चिंता बढ़ाती है



- The **Supreme Court** has not confirmed a single **death penalty** in the past **three years**, according to an annual statistics report on death penalties in India, published by the **Square Circle Clinic**, a criminal justice initiative at the **NALSAR University of Law, Hyderabad**.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले तीन वर्षों में एक भी मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की है, यह जानकारी भारत में मृत्युदंड पर वार्षिक सांख्यिकीय रिपोर्ट में दी गई है, जिसे **स्क्वायर सर्कल क्लिनिक**, नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद की एक आपराधिक न्याय पहल ने प्रकाशित किया है
- In fact, in **2025**, the top court acquitted **10 prisoners** who had been on **death row**, the highest number of such acquittals in the past **decade**.
वास्तव में, **2025** में शीर्ष अदालत ने **मृत्युदंड की सजा पाए 10 कैदियों** को बरी किया, जो पिछले दशक में इस तरह की बरी की गई सबसे अधिक संख्या है
- The report, which examined **death penalty trends** across India over the past **10 years**, found that the **sessions courts** handed down **1,310 death sentences** nationwide between **2016 and 2025**.
रिपोर्ट, जिसने पिछले **10 वर्षों** में पूरे भारत में **मृत्युदंड के रुझानों** का अध्ययन किया, में पाया गया कि **सत्र न्यायालयों** ने **2016 से 2025** के बीच देशभर में **1,310 मृत्युदंड** सुनाए
- “Despite growing judicial scepticism at higher levels,” the lower courts sentenced **128 individuals** to death in **2025 alone**, the report said.
“उच्च स्तरों पर बढ़ती न्यायिक संदेह के बावजूद,” रिपोर्ट के अनुसार, निचली अदालतों ने केवल **2025** में **128 व्यक्तियों** को मृत्युदंड सुनाया

High rate of acquittals बरी होने की उच्च दर

- Of the **1,310 death sentences**, **842 verdicts** were handed down by the **High Courts**, of which **70** — that is, just **8.31%** — were confirmed.
1,310 मृत्युदंडों में से **842 फैसले उच्च न्यायालयों** द्वारा दिए गए, जिनमें से केवल **70** — यानी मात्र **8.31%** — की पुष्टि हुई
- The **High Courts** acquitted **285 people** on death row, while **411 death sentences** were commuted.
उच्च न्यायालयों ने मृत्युदंड पाए **285 लोगों** को बरी किया, जबकि **411 मृत्युदंडों** को कम कर दिया गया
- The **Supreme Court's** stance has been even more restrictive, with **no death sentence confirmed** in the past **three years**.
सुप्रीम कोर्ट का रुख और भी सख्त रहा है, जहां पिछले तीन वर्षों में **किसी भी मृत्युदंड की पुष्टि नहीं** की गई
- Also, in cases where **sessions courts** imposed death sentences which were confirmed by the **High Courts**, not a single sentence has yet been affirmed by the **Supreme Court**.
इसके अलावा, जिन मामलों में **सत्र न्यायालयों** द्वारा दिया गया मृत्युदंड **उच्च न्यायालयों** द्वारा पुष्टि किया गया, उनमें से एक भी सजा को अब तक **सुप्रीम कोर्ट** ने बरकरार नहीं रखा
- Of the **37 such death sentences** which have been decided by the **Supreme Court**, **15** resulted in **acquittal** and **14** were **commuted**.
ऐसे **37 मृत्युदंड मामलों** में जिन पर **सुप्रीम कोर्ट** ने निर्णय दिया, **15** मामलों में **बरी** किया गया और **14** में सजा **कम की गई**
- “What is starkly clear from these figures is that errors at **Sessions Courts** are not only leading to wrongful imposition of death sentence but are also resulting in **wrongful convictions**,” the report said.
रिपोर्ट में कहा गया, “इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि **सत्र न्यायालयों** की त्रुटियां न केवल मृत्युदंड की गलत सजा का कारण बन रही हैं बल्कि **गलत दोषसिद्धि** भी कर रही हैं”
- The high rate of acquittals by the **appellate judiciary** requires a serious examination of how **Sessions Courts** deem a case worthy of even a conviction, the report said.
रिपोर्ट के अनुसार, **अपील अदालतों** द्वारा बरी किए जाने की उच्च दर इस बात की गंभीर जांच की मांग करती है कि **सत्र न्यायालय** किसी मामले को दोषसिद्धि योग्य कैसे मानते हैं
- The report also showed that India had **574 prisoners** — **550 men** and **24 women** — on **death row** as of **December 31, 2025**.
रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया कि **31 दिसंबर 2025** तक भारत में **574 कैदी** — **550 पुरुष** और **24 महिलाएं** — **मृत्युदंड पंक्ति** में थे



- The average time spent on death row before acquittal was over **five years**, with some prisoners languishing for nearly a **decade** before being exonerated.
बरी होने से पहले मृत्युदंड पंक्ति में बिताया गया औसत समय **पांच वर्ष** से अधिक था, जबकि कुछ कैदी लगभग **एक दशक** तक निर्दोष सिद्ध होने की प्रतीक्षा करते रहे
- However, **138 individuals** were also removed from death row during the year through **acquittals, commutations, or remand orders**
हालांकि, वर्ष के दौरान **138 व्यक्तियों** को बरी, सजा कम होने, या रिमांड आदेशों के माध्यम से मृत्युदंड पंक्ति से हटाया गया
- One of the report's most alarming findings concerns **procedural violations** at the **sentencing stage**.
रिपोर्ट के सबसे चिंताजनक निष्कर्षों में से एक **सजा निर्धारण चरण** में **प्रक्रियात्मक उल्लंघनों** से संबंधित है
- Despite clear guidelines laid down by the **Supreme Court** in **Manoj vs State of Madhya Pradesh**, which **mandate psychological evaluations, prison conduct reports, and mitigation hearings** — which were elevated to a fair trial right requirement in **Vasanta Sampat Dupare vs Union of India** — in **2025**, nearly **95% of death sentences** were imposed without compliance.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा **Manoj बनाम मध्य प्रदेश राज्य** मामले में निर्धारित स्पष्ट दिशानिर्देशों के बावजूद, जिनमें **मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, जेल आचरण रिपोर्ट, और रियायत सुनवाई** अनिवार्य हैं — जिन्हें **Vasanta Sampat Dupare बनाम भारत संघ** में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार बनाया गया — **2025** में लगभग **95% मृत्युदंड** बिना अनुपालन के सुनाए गए
- **Sentencing hearings** were frequently conducted within days of conviction, leaving little scope for meaningful defence representation, the report said.
रिपोर्ट के अनुसार, **सजा सुनवाई** अक्सर दोषसिद्धि के कुछ ही दिनों के भीतर की गई, जिससे प्रभावी बचाव पक्ष प्रतिनिधित्व की बहुत कम गुंजाइश रही
- Another emerging trend is the **growing use of life imprisonment without remission as an alternative to the death penalty**.
एक अन्य उभरता रुझान **मृत्युदंड** के विकल्प के रूप में **बिना छूट के आजीवन कारावास** का बढ़ता उपयोग है



There is no case for scrapping MPLADS funds

GS II: Polity

MOB

Recently, a controversy broke out over the use of MPLADS funds. Launched in December 1993, MPLADS, or Members of Parliament Local Area Development Scheme, is a Central Sector Scheme fully funded by the Government of India. It enables Members of Parliament to recommend developmental projects focusing on creating durable community assets (such as roads, school buildings, and water facilities) in their constituencies.

The case at hand

Last month, the Bharatiya Janata Party (BJP) alleged that three Congress MPs from Rajasthan had misused the MPLADS funds. The party claimed that Brijendra Singh Ola of Jhunjhunu had allocated ₹25 lakh, Rahul Kaswan of Churu had allocated ₹50 lakh, and Sanjana Jatav of Bharatpur had allocated ₹45 lakh for developmental work in the Kaithal district of Haryana, instead of utilising the funds for developmental work within their constituencies in Rajasthan. This, the BJP argued, ran contrary to the core objective of MPLADS. It raised concerns about the appropriateness of allocating public funds across State boundaries. The party further alleged that the allocations were politically motivated, as Kaithal is the Assembly constituency of Aditya Surjewala, son of Congress leader and Rajya Sabha MP Randeep Singh Surjewala.

The Congress rejected this charge of impropriety. Mr. Ola said that the allocations were made within the framework of existing MPLADS guidelines (2023), which state that elected MPs can recommend eligible works up to a limit of ₹50 lakh in a financial year outside their constituency/State, except in cases of natural calamities. (In the event of a "calamity of severe nature" in any part of the country, an MP can recommend works up to a maximum of ₹1 crore.) He also accused BJP MPs of having previously used MPLAD funds for

Sanjay Kumar

Professor and election analyst

Arindam Kabir

Researcher with Lokniti-CSDS

Harshvardhan Singh Rathore

Student of Jindal School of International Affairs who is interning with Lokniti-CSDS

questionable purposes.

The debate over the rationale of this scheme is not new. While critics argue that MPLADS funds are poorly utilised and should be discontinued, supporters of the scheme argue that funds should continue to be given as MPs need them for carrying out developmental work.

Use of funds

The MPLAD Scheme enables each MP to recommend developmental projects worth ₹5 crore annually, usually within their own constituency. According to data from the live MPLADS dashboard (mplads.mospi.gov.in), which is updated as projects progress, during the ongoing 18th Lok Sabha, ₹5,486 crore has been allocated for MPLADS funds. Of this, ₹1,453.69 crore has been spent so far. Many developmental works are still under way.

During the 17th Lok Sabha (2019-2024), ₹4,837.87 crore was allocated for MPLADS funds, of which ₹3,639.53 crore was reported as spent. Of the total 96,211 works recommended to be carried out, 41,143 were completed. While nearly half the works were not completed, 75.23% of the allocated budget was spent. The share of the total allocated budget that remained unspent could be attributed to inactivity during at least two years of the COVID-19 pandemic.

The data suggest that the MPLADS funds were used well in previous years as well. During the 16th Lok Sabha (2014-2019), only 8.7% funds remained unused. In the 15th Lok Sabha (2009-2014), this share was much lower (3.47%). And in the 14th Lok Sabha (2004-2009), only 0.99% remained unused.

While it is true that some MPs may not have been able to use their MPLADS funds to the fullest capacity for developmental work, that cannot be treated as the dominant trend. In fact, there are notable examples of MPs who have fully utilised their MPLADS allocations and it is worth

highlighting them.

According to a report in October 2025, Sant Balbir Singh Seechewal (Rajya Sabha, Punjab) emerged as the top spender among Punjab's Rajya Sabha MPs, having utilised ₹9.34 crore of his allocation of ₹14.72 crore (over 63%). Mr. Seechewal had primarily utilised his funds to address water scarcity in villages.

Iqra Choudhary, the Samajwadi Party MP for Kairana, has been appreciated by many for maintaining a fully updated MPLADS profile with geotagged images. This exemplifies transparency and enables a citizen to easily verify what work was done and where.

In the 17th Lok Sabha, Tejasvi Surya (Lok Sabha MP from the BJP representing Bengaluru South) spent ₹19.36 crore, according to an analysis by Bangalore Political Action Committee. By also asking the highest number of questions in the Lok Sabha, he emerged as a top performer among Bengaluru city MPs.

Abhishek Banerjee, the Trinamool Congress MP from Diamond Harbour, was cited in a report for having the highest number of project completions among West Bengal MPs. He completed 173 works and spent ₹6.13 crore.

No case for discontinuation

There is therefore no case for discontinuing the MPLADS Scheme or for rethinking or reducing the amounts. A better approach for improvement would be to organise short workshops with consultants, where MPs are guided on how to effectively utilise their MPLADS funds for development purposes.

After all, MPs know the importance of utilising MPLADS funds. Expenditure on developmental projects within their constituencies addresses local needs and gives them political benefits. And it is when people truly benefit that MPs have a greater chance of getting re-elected.

While some MPs may not have been able to use their MPLADS funds to the fullest capacity, that cannot be treated as the dominant trend

There is no case for scrapping MPLADS funds MPLADS फंड को खत्म करने का कोई मामला नहीं है

- Recently, a controversy broke out over the use of **MPLADS** funds. हाल ही में **एमपीएलएडीएस** निधियों के उपयोग को लेकर एक विवाद सामने आया।
- **Launched in December 1993, MPLADS, or Members of Parliament Local Area Development Scheme, is a Central Sector Scheme** fully funded by the **Government of**



India.

दिसंबर 1993 में शुरू की गई एमपीएलएडीएस, अर्थात संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे भारत सरकार पूरी तरह वित्तपोषित करती है।

- It enables Members of Parliament to recommend developmental projects focusing on creating durable community assets (such as roads, school buildings, and water facilities) in their constituencies.

यह संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियाँ (जैसे सड़कें, स्कूल भवन और जल सुविधाएँ) बनाने पर केंद्रित विकास परियोजनाओं की अनुशंसा करने में सक्षम बनाती है।

The case at hand

वर्तमान मामला

- Last month, the **Bharatiya Janata Party (BJP)** alleged that three **Congress** MPs from **Rajasthan** had misused the **MPLADS** funds.
पिछले महीने, **भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)** ने आरोप लगाया कि **राजस्थान** के तीन **कांग्रेस** सांसदों ने **एमपीएलएडीएस** निधियों का दुरुपयोग किया है।
- The party claimed that **Brijendra Singh Ola** of **Jhunjhunu** had allocated **₹25 lakh**, **Rahul Kaswan** of **Churu** had allocated **₹50 lakh**, and **Sanjana Jatav** of **Bharatpur** had allocated **₹45 lakh** for developmental work in the **Kaithal district of Haryana**, instead of utilising the funds for developmental work within their constituencies in **Rajasthan**.
पार्टी का दावा था कि **झुंझुनू** के **बृजेन्द्र सिंह ओला** ने **₹25 लाख**, **चूरू** के **राहुल कस्वान** ने **₹50 लाख**, और **भरतपुर** की **संजना जाटव** ने **₹45 लाख हरियाणा के कैथल जिले** में विकास कार्य के लिए आवंटित किए, जबकि इन निधियों का उपयोग **राजस्थान** में अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर विकास कार्यों के लिए किया जाना चाहिए था।
- This, the **BJP** argued, ran contrary to the core objective of **MPLADS**.
भाजपा का तर्क था कि यह **एमपीएलएडीएस** के मूल उद्देश्य के विपरीत है।
- It raised concerns about the appropriateness of allocating public funds across State boundaries.
इससे राज्य सीमाओं के पार सार्वजनिक धन आवंटित करने की उपयुक्तता पर चिंताएँ उठीं।
- The party further alleged that the allocations were politically motivated, as **Kaithal** is the Assembly constituency of **Aditya Surjewala**, son of Congress leader and **Rajya Sabha MP Randeep Singh Surjewala**.
पार्टी ने आगे आरोप लगाया कि ये आवंटन राजनीतिक रूप से प्रेरित थे, क्योंकि **कैथल आदित्य सुरजेवाला** का विधानसभा क्षेत्र है, जो कांग्रेस नेता और **राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला** के पुत्र हैं।
- The **Congress** rejected this charge of impropriety.
कांग्रेस ने इस अनुचितता के आरोप को खारिज कर दिया।
- Mr. Ola said that the allocations were made within the framework of existing **MPLADS guidelines (2023)**, which state that elected MPs can recommend eligible works up to a limit of **₹50 lakh** in a financial year outside their constituency/State, except in cases of natural calamities.
श्री ओला ने कहा कि ये आवंटन मौजूदा **एमपीएलएडीएस दिशानिर्देश (2023)** के ढांचे के भीतर किए गए थे, जिनके अनुसार निर्वाचित सांसद प्राकृतिक आपदाओं के मामलों को छोड़कर, अपने निर्वाचन क्षेत्र/राज्य के बाहर एक वित्तीय वर्ष में **₹50 लाख** की सीमा तक पात्र कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं।
- In the event of a "calamity of severe nature" in any part of the country, an MP can recommend works up to a maximum of **₹1 crore**.
(देश के किसी भी भाग में "गंभीर प्रकृति की आपदा" की स्थिति में, एक सांसद अधिकतम **₹1 करोड़** तक कार्यों की अनुशंसा कर सकता है।)
- He also accused **BJP** MPs of having previously used **MPLAD** funds for questionable purposes.
उन्होंने **भाजपा** सांसदों पर भी पहले **एमपीएलएडी** निधियों का संदिग्ध उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का आरोप लगाया।
- The debate over the rationale of this scheme is not new.
इस योजना के औचित्य को लेकर बहस नई नहीं है।
- While critics argue that **MPLADS** funds are poorly utilised and should be discontinued, supporters of the scheme argue that funds should continue to be given as MPs need them for carrying out developmental work.



जहाँ आलोचकों का तर्क है कि **एमपीएलएडीएस** निधियों का खराब उपयोग होता है और इसे बंद कर देना चाहिए, वहीं योजना के समर्थकों का कहना है कि निधियाँ जारी रहनी चाहिए क्योंकि सांसदों को विकास कार्य कराने के लिए इनकी आवश्यकता होती है।

Use of funds निधियों का उपयोग

- The **MPLAD Scheme** enables each MP to recommend developmental projects worth **₹5 crore annually**, usually within their own constituency.
एमपीएलएडी योजना प्रत्येक सांसद को आमतौर पर अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में **वार्षिक ₹5 करोड़** के विकास कार्यों की अनुशंसा करने में सक्षम बनाती है।
- According to data from the live **MPLADS dashboard (mplads.mospi.gov.in)**, which is updated as projects progress, during the ongoing **18th Lok Sabha**, **₹5,486 crore** has been allocated for MPLADS funds.
परियोजनाओं की प्रगति के साथ अद्यतन होने वाले लाइव **एमपीएलएडीएस डैशबोर्ड (mplads.mospi.gov.in)** के आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान **18वीं लोकसभा** के दौरान **₹5,486 करोड़** एमपीएलएडीएस निधियों के लिए आवंटित किए गए हैं।
- Of this, **₹1,453.69 crore** has been spent so far. इनमें से अब तक **₹1,453.69 करोड़** खर्च किए जा चुके हैं।
- Many developmental works are still under way. कई विकास कार्य अभी भी जारी हैं।
- During the **17th Lok Sabha (2019-2024)**, **₹4,837.87 crore** was allocated for MPLADS funds, of which **₹3,639.53 crore** was reported as spent.
17वीं लोकसभा (2019-2024) के दौरान, **₹4,837.87 करोड़** एमपीएलएडीएस निधियों के लिए आवंटित किए गए थे, जिनमें से **₹3,639.53 करोड़** खर्च होने की सूचना दी गई।
- Of the total **96,211** works recommended to be carried out, **41,143** were completed. कुल **96,211** अनुशंसित कार्यों में से **41,143** पूरे किए गए।
- While nearly half the works were not completed, **75.23%** of the allocated budget was spent. जबकि लगभग आधे कार्य पूरे नहीं हो सके, फिर भी आवंटित बजट का **75.23%** खर्च किया गया।
- The share of the total allocated budget that remained unspent could be attributed to inactivity during at least two years of the **COVID-19** pandemic.
कुल आवंटित बजट का जो हिस्सा खर्च नहीं हुआ, उसे कम से कम दो वर्षों तक **कोविड-19** महामारी के दौरान निष्क्रियता से जोड़ा जा सकता है।
- The data suggest that the MPLADS funds were used well in previous years as well. आँकड़े बताते हैं कि पिछले वर्षों में भी एमपीएलएडीएस निधियों का अच्छा उपयोग हुआ था।
- During the **16th Lok Sabha (2014-2019)**, only **8.7%** funds remained unused.
16वीं लोकसभा (2014-2019) के दौरान केवल **8.7%** निधियाँ अप्रयुक्त रहीं।
- In the **15th Lok Sabha (2009-2014)**, this share was much lower (**3.47%**).
15वीं लोकसभा (2009-2014) में यह हिस्सा बहुत कम था (**3.47%**)।
- And in the **14th Lok Sabha (2004-2009)**, only **0.99%** remained unused.
और **14वीं लोकसभा (2004-2009)** में केवल **0.99%** अप्रयुक्त रहा।
- While it is true that some MPs may not have been able to use their MPLADS funds to the fullest capacity for developmental work, that cannot be treated as the dominant trend.
यह सही है कि कुछ सांसद विकास कार्यों के लिए अपनी एमपीएलएडीएस निधियों का पूर्ण क्षमता तक उपयोग नहीं कर पाए होंगे, लेकिन इसे प्रमुख प्रवृत्ति नहीं माना जा सकता।
- In fact, there are notable examples of MPs who have fully utilised their MPLADS allocations and it is worth highlighting them.
वास्तव में, ऐसे उल्लेखनीय उदाहरण हैं जिनमें सांसदों ने अपने एमपीएलएडीएस आवंटन का पूर्ण उपयोग किया है और उन्हें उजागर करना उचित है।
- According to a report in **October 2025**, **Sant Balbir Singh Seechewal (Rajya Sabha, Punjab)** emerged as the top spender among Punjab's Rajya Sabha MPs, having utilised **₹9.34 crore** of his allocation of **₹14.72 crore** (over **63%**).
अक्टूबर 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार, **संत बलबीर सिंह सीचेवाल (राज्यसभा, पंजाब)** पंजाब के राज्यसभा सांसदों में शीर्ष खर्चकर्ता के रूप में उभरे, जिन्होंने **₹14.72 करोड़** के अपने आवंटन में से **₹9.34 करोड़** (**63%** से अधिक) उपयोग किए।



- Mr. Seechewal had primarily utilised his funds to address water scarcity in villages. श्री सीचेवाल ने मुख्य रूप से गाँवों में जल संकट दूर करने के लिए अपनी निधियों का उपयोग किया।
- **Iqra Choudhary**, the Samajwadi Party MP for **Kairana**, has been appreciated by many for maintaining a fully updated MPLADS profile with geotagged images. **कैरेना** की समाजवादी पार्टी सांसद **इकरा चौधरी** को जियोटैग की गई तस्वीरों के साथ पूरी तरह अद्यतन एमपीएलएडीएस प्रोफाइल बनाए रखने के लिए कई लोगों ने सराहा है।
- This exemplifies transparency and enables a citizen to easily verify what work was done and where.
यह पारदर्शिता का उदाहरण है और नागरिक को यह आसानी से सत्यापित करने में सक्षम बनाता है कि कौन सा कार्य कहाँ किया गया।
- In the **17th Lok Sabha**, **Tejasvi Surya** (Lok Sabha MP from the BJP representing **Bengaluru South**) spent **₹19.36 crore**, according to an analysis by Bangalore Political Action Committee.
17वीं लोकसभा में, बेंगलूर राजनीतिक कार्य समिति के विश्लेषण के अनुसार, **तेजस्वी सूर्या** (भाजपा के लोकसभा सांसद, **बेंगलुरु दक्षिण** का प्रतिनिधित्व करते हुए) ने **₹19.36 करोड़** खर्च किए।
- By also asking the highest number of questions in the Lok Sabha, he emerged as a top performer among Bengaluru city MPs.
लोकसभा में सबसे अधिक प्रश्न पूछकर वे बेंगलुरु शहर के सांसदों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे।
- **Abhishek Banerjee**, the Trinamool Congress MP from **Diamond Harbour**, was cited in a report for having the highest number of project completions among West Bengal MPs.
डायमंड हार्बर के तृणमूल कांग्रेस सांसद **अभिषेक बनर्जी** का एक रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के सांसदों में सर्वाधिक परियोजना पूर्णताओं के लिए उल्लेख किया गया।
- He completed **173** works and spent **₹6.13 crore**.
उन्होंने **173** कार्य पूरे किए और **₹6.13 करोड़** खर्च किए।

No case for discontinuation बंद करने का कोई आधार नहीं

- There is therefore no case for discontinuing the **MPLADS Scheme** or for rethinking or reducing the amounts.
इसलिए **एमपीएलएडीएस योजना** को बंद करने या राशि पर पुनर्विचार करने या उसे घटाने का कोई आधार नहीं है।
- A better approach for improvement would be to organise short workshops with consultants, where MPs are guided on how to effectively utilise their MPLADS funds for development purposes.
सुधार के लिए बेहतर तरीका यह होगा कि परामर्शदाताओं के साथ छोटे कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ, जहाँ सांसदों को यह मार्गदर्शन दिया जाए कि वे विकास उद्देश्यों के लिए अपनी एमपीएलएडीएस निधियों का प्रभावी उपयोग कैसे करें।
- After all, MPs know the importance of utilising MPLADS funds.
आखिरकार, सांसद एमपीएलएडीएस निधियों के उपयोग का महत्व जानते हैं।
- Expenditure on developmental projects within their constituencies addresses local needs and gives them political benefits.
उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं पर खर्च स्थानीय जरूरतों को पूरा करता है और उन्हें राजनीतिक लाभ देता है।
- And it is when people truly benefit that MPs have a greater chance of getting re-elected.
और जब लोगों को वास्तव में लाभ मिलता है, तभी सांसदों के पुनः निर्वाचित होने की संभावना बढ़ जाती है।



Has the 16th Finance Commission sidelined the States?

GS II: Polity

Despite a rare consensus among States, the Commission has aligned with the Centre's priorities

DATA POINT

Vignesh Radhakrishnan
Sambavi Parthasarathy

The 16th Finance Commission (FC)'s vertical devolution recommendations prioritise the needs of the Centre over the realities of States. By merely acknowledging, rather than heeding, States' fiscal pressures, the FC has taken a distinctly conservative stance.

To grasp the underlying tensions, we must first look deeper into the structural issues. The 16th FC has maintained the vertical devolution rate at 41%, representing the States' share of the divisible pool. Crucially, this divisible pool excludes cesses, surcharges, and collection costs, meaning its total volume is dictated by the Centre's tax strategy. By favouring cesses and surcharges over standard tax instruments, the Centre effectively shrinks the shareable revenue; conversely, a shift back to traditional taxation would expand it.

Data show the way the present regime has gone about it. **Chart 1** is a simplified representation of the divisible pool. Between 2013 and 2019, for every ₹100 collected by the Centre, about ₹93-95 was collected as taxes and duties that form the divisible pool; the remaining ₹5-7 was collected as cesses and surcharges, including the expenditure incurred in collecting these taxes. In 2021-22, for every ₹100 collected, ₹86.5 was collected as taxes and duties, while the cesses and surcharges component increased to ₹13.5. For 2025-26, the Centre is expected to collect ₹89 as taxes and duties and ₹11 as cesses and surcharges. The GST compensation cess was not included in this analysis, as it was collected to compensate the States for revenue loss due to the implementation of GST.

Let us juxtapose the figures: post-2019, the cesses and surcharges component has nearly doubled from ₹5-7 to ₹11-13.5 for every ₹100

collected. Notably, the 16th FC has also come to the same conclusion: "In 2011-12, this non-shareable portion of revenues was 1.1% of GDP, and the divisible pool was 9.1%. By 2023-24, the non-shareable portion had expanded to 2.2% of GDP while the divisible pool stood at 9.4%."

Further evidence of this is also seen in **Charts 2A** and **2B** which are based on absolute collections data presented in Parliament on Tuesday. The money collected as cesses by the Centre – excluding GST compensation cess – increased from ₹44,688 crore in FY15 to ₹3,52,650 crore in FY22 and is expected to be around ₹2,51,206 crore in FY26. Similarly, surcharges collected have risen from ₹15,702 crore in FY15 to ₹40,758 crore in FY22 and is expected to be around ₹1,72,500 crore in FY26.

This unbridled rise in cesses and surcharges means that the share of the divisible pool in the Centre's Gross Tax Revenue (including the GST compensation cess) is expected to remain below 90% for the sixth consecutive year (**Chart 3**). In contrast, between FY13 and FY18, this share remained consistently above 93%. While the debate rages over whether to maintain, raise, or lower the vertical devolution rate of 41%, the underlying divisible pool is shrinking because the Centre is increasingly collecting revenue through cesses and surcharges.

As many as 18 States – including Odisha, Haryana, and Gujarat, Kerala, and Tamil Nadu – have demanded an increase in vertical devolution from 41% to 50%. Most other States have advocated for a more moderate increase to 45% or 48%. In stark contrast, the Centre called for a "moderation in tax devolution". While the 16th FC kept the rate unchanged in an apparent attempt to balance these competing demands, the reasoning provided suggests that maintaining the status quo primarily serves the Centre's interests.

First, the FC notes that the Constitution does not permit a cap on cesses and surcharges. It argues that the Centre requires these funds for emergencies such as war, famine, and pandemics, concluding that imposing a limit would be "imprudent". Interestingly, the FC simultaneously acknowledges that long-term reliance on these levies is "undesirable", warning that if the Centre continues to favour them, it may "lose interest in standard instruments of taxation", an outcome detrimental to States' interests. Furthermore, the FC points to "recent shifts in the external security and defence environment" as a justification for increased defence spending, while asserting that the Centre has demonstrated a "high degree of effectiveness" in infrastructure building, necessitating greater financial support. Also, it maintains that the current distribution of tax revenues "gives States sufficient resources to discharge their constitutional responsibilities". It concludes by suggesting that the resolution lies in a mutual agreement between the Centre and the States, whereby the Centre voluntarily transitions a large part of its revenue collection from cesses and surcharges back into the divisible pool of regular taxes.




The FC's interpretation of the fiscal landscape ultimately raises more questions than it answers. First, could the architects of the Constitution have ever envisioned such a disproportionate rise in cesses and surcharges? Second, by declaring a cap on cess as "imprudent," has the FC not effectively forced the Centre to draw its own boundary, by refusing to play mediator? Third, doesn't the claim that the Centre demonstrates efficiency in infrastructure ignore the fact that high-performing States are getting the raw end of the bargain? Finally, if the States truly possess "sufficient" resources, why have nearly all of them – regardless of political affiliation – unanimously demanded a larger share?

Status quo in States' share

The data for the charts were sourced from the Rajya Sabha Questions and Answers, 16th Finance Commission report and CAG reports



Chart 1: For every ₹100 collected by the Centre, how much ₹ is collected as taxes & duties and cesses & surcharges?



Has the 16th Finance Commission sidelined the States? क्या 16वें वित्त आयोग ने राज्यों को हाशिये पर डाल दिया है?

- The **16th Finance Commission (FC)**'s vertical devolution recommendations prioritise the needs of the **Centre** over the realities of **States**.
16वें वित्त आयोग (एफसी) की ऊर्ध्वधर हस्तांतरण संबंधी सिफारिशें **केंद्र** की जरूरतों को **राज्यों** की वास्तविकताओं पर प्राथमिकता देती हैं।
- By merely acknowledging, rather than heeding, States' fiscal pressures, the **FC** has taken a distinctly conservative stance.
राज्यों के वित्तीय दबावों को केवल स्वीकार करके, उन्हें गंभीरता से ध्यान में न रखकर, **वित्त आयोग** ने स्पष्ट रूप से एक रूढ़िवादी रुख अपनाया है।
- To grasp the underlying tensions, we must first look deeper into the structural issues.
अंतर्निहित तनावों को समझने के लिए हमें पहले संरचनात्मक मुद्दों में गहराई से देखना होगा।
- The **16th FC** has maintained the vertical devolution rate at **41%**, representing the States' share of the divisible pool.
16वें वित्त आयोग ने ऊर्ध्वधर हस्तांतरण दर को **41%** पर बनाए रखा है, जो विभाज्य कोष में राज्यों की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है।
- Crucially, this divisible pool excludes cesses, surcharges, and collection costs, meaning its total volume is dictated by the Centre's tax strategy.



महत्वपूर्ण रूप से, यह विभाज्य कोष उपकर, अधिभार और संग्रह लागत को शामिल नहीं करता, जिसका अर्थ है कि इसका कुल आकार केंद्र की कर रणनीति से निर्धारित होता है।

- By favouring cesses and surcharges over standard tax instruments, the Centre effectively shrinks the shareable revenue; conversely, a shift back to traditional taxation would expand it. मानक कर साधनों के बजाय उपकर और अधिभार को प्राथमिकता देकर केंद्र प्रभावी रूप से साझा किए जा सकने वाले राजस्व को घटा देता है; इसके विपरीत, पारंपरिक कराधान की ओर लौटने से यह बढ़ जाएगा।
- Data show the way the present regime has gone about it. आँकड़े दर्शाते हैं कि वर्तमान व्यवस्था ने यह कैसे किया है।
- **Chart 1** is a simplified representation of the divisible pool. **चार्ट 1** विभाज्य कोष का एक सरल रूप में प्रतिनिधित्व है।
- Between **2013 and 2019**, for every **₹100** collected by the Centre, about **₹93-95** was collected as taxes and duties that form the divisible pool; the remaining **₹5-7** was collected as cesses and surcharges, including the expenditure incurred in collecting these taxes. **2013 से 2019** के बीच, केंद्र द्वारा हर **₹100** की वसूली में से लगभग **₹93-95** करों और शुल्कों के रूप में वसूला गया जो विभाज्य कोष बनाते हैं; शेष **₹5-7** उपकर और अधिभार के रूप में वसूला गया, जिसमें इन करों को एकत्र करने में हुआ व्यय भी शामिल था।
- In **2021-22**, for every **₹100** collected, **₹86.5** was collected as taxes and duties, while the cesses and surcharges component increased to **₹13.5**. **2021-22** में, हर **₹100** की वसूली में **₹86.5** करों और शुल्कों के रूप में वसूला गया, जबकि उपकर और अधिभार का हिस्सा बढ़कर **₹13.5** हो गया।
- For **2025-26**, the Centre is expected to collect **₹89** as taxes and duties and **₹11** as cesses and surcharges. **2025-26** के लिए, केंद्र से अपेक्षा है कि वह **₹89** करों और शुल्कों के रूप में तथा **₹11** उपकर और अधिभार के रूप में वसूलेगा।
- The **GST compensation cess** was not included in this analysis, as it was collected to compensate the States for revenue loss due to the implementation of **GST**. इस विश्लेषण में **जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर** शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इसे **जीएसटी** लागू होने से राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए एकत्र किया गया था।
- Let us juxtapose the figures: post-**2019**, the cesses and surcharges component has nearly doubled from **₹5-7** to **₹11-13.5** for every **₹100** collected. आइए आँकड़ों की तुलना करें: **2019** के बाद, हर **₹100** की वसूली में उपकर और अधिभार का हिस्सा लगभग दोगुना होकर **₹5-7** से बढ़कर **₹11-13.5** हो गया है।
- Notably, the **16th FC** has also come to the same conclusion: "In **2011-12**, this non-shareable portion of revenues was **1.1%** of GDP, and the divisible pool was **9.1%**. By **2023-24**, the non-shareable portion had expanded to **2.2%** of GDP while the divisible pool stood at **9.4%**." उल्लेखनीय रूप से, **16वें वित्त आयोग** ने भी यही निष्कर्ष निकाला है: "**2011-12** में, राजस्व का यह गैर-साझा योग्य हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद का **1.1%** था, और विभाज्य कोष **9.1%** था। **2023-24** तक, गैर-साझा योग्य हिस्सा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का **2.2%** हो गया जबकि विभाज्य कोष **9.4%** पर था।"
- Further evidence of this is also seen in **Charts 2A and 2B** which are based on absolute collections data presented in Parliament on Tuesday. इसका और प्रमाण **चार्ट 2A और 2B** में भी दिखता है, जो मंगलवार को संसद में प्रस्तुत कुल संग्रह आँकड़ों पर आधारित हैं।
- The money collected as cesses by the Centre — excluding **GST compensation cess** — increased from **₹44,688 crore** in **FY15** to **₹3,52,650 crore** in **FY22** and is expected to be around **₹2,51,206 crore** in **FY26**. केंद्र द्वारा उपकर के रूप में एकत्र धन — **जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर** को छोड़कर — **वित्त वर्ष 15** में **₹44,688 करोड़** से बढ़कर **वित्त वर्ष 22** में **₹3,52,650 करोड़** हो गया और **वित्त वर्ष 26** में इसके लगभग **₹2,51,206 करोड़** रहने की अपेक्षा है।
- Similarly, surcharges collected have risen from **₹15,702 crore** in **FY15** to **₹40,758 crore** in **FY22** and is expected to be around **₹1,72,500 crore** in **FY26**. इसी प्रकार, अधिभार संग्रह **वित्त वर्ष 15** में **₹15,702 करोड़** से बढ़कर **वित्त वर्ष 22** में **₹40,758 करोड़** हो गया और **वित्त वर्ष 26** में इसके लगभग **₹1,72,500 करोड़** रहने की अपेक्षा है।
- This unbridled rise in cesses and surcharges means that the share of the divisible pool in the Centre's Gross Tax Revenue (including the **GST compensation cess**) is expected to remain below **90%** for the sixth consecutive year (**Chart 3**).



उपकर और अधिभार में यह अनियंत्रित वृद्धि का अर्थ है कि केंद्र के सकल कर राजस्व में (जिसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर भी शामिल है) विभाज्य कोष की हिस्सेदारी लगातार छठे वर्ष 90% से नीचे रहने की अपेक्षा है (चार्ट 3)।

- In contrast, between **FY13 and FY18**, this share remained consistently above **93%**. इसके विपरीत, **वित्त वर्ष 13 से वित्त वर्ष 18** के बीच यह हिस्सेदारी लगातार **93%** से ऊपर रही थी।
- While the debate rages over whether to maintain, raise, or lower the vertical devolution rate of **41%**, the underlying divisible pool is shrinking because the Centre is increasingly collecting revenue through cesses and surcharges. जबकि **41%** की ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण दर को बनाए रखने, बढ़ाने या घटाने पर बहस जारी है, वास्तविक विभाज्य कोष सिकुड़ रहा है क्योंकि केंद्र बढ़ते रूप से उपकर और अधिभार के माध्यम से राजस्व संग्रह कर रहा है।
- As many as **18 States** — including **Odisha, Haryana, and Gujarat, Kerala, and Tamil Nadu** — have demanded an increase in vertical devolution from **41% to 50%**. **18 राज्यों** — जिनमें **ओडिशा, हरियाणा, गुजरात, केरल और तमिलनाडु** शामिल हैं — ने ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण को **41% से 50%** तक बढ़ाने की मांग की है।
- Most other States have advocated for a more moderate increase to **45% or 48%**. अधिकांश अन्य राज्यों ने **45%** या **48%** तक अपेक्षाकृत मध्यम वृद्धि का समर्थन किया है।
- In stark contrast, the Centre called for a **“moderation in tax devolution”**. इसके विपरीत, केंद्र ने **“कर हस्तांतरण में संयम”** की मांग की।
- While the **16th FC** kept the rate unchanged in an apparent attempt to balance these competing demands, the reasoning provided suggests that maintaining the status quo primarily serves the Centre’s interests. जबकि **16वें वित्त आयोग** ने इन प्रतिस्पर्धी मांगों में संतुलन बनाने के प्रयास में दर को अपरिवर्तित रखा, दिए गए तर्क संकेत करते हैं कि यथास्थिति बनाए रखना मुख्यतः केंद्र के हितों की सेवा करता है।
- First, the FC notes that the Constitution does not permit a cap on cesses and surcharges. पहला, वित्त आयोग ने कहा कि संविधान उपकर और अधिभार पर सीमा लगाने की अनुमति नहीं देता।
- It argues that the Centre requires these funds for emergencies such as war, famine, and pandemics, concluding that imposing a limit would be **“imprudent”**. उसने तर्क दिया कि केंद्र को युद्ध, अकाल और महामारियों जैसी आपात स्थितियों के लिए इन निधियों की आवश्यकता होती है, और निष्कर्ष निकाला कि सीमा लगाना **“अविवेकपूर्ण”** होगा।
- Interestingly, the FC simultaneously acknowledges that long-term reliance on these levies is **“undesirable”**, warning that if the Centre continues to favour them, it may “lose interest in standard instruments of taxation”, an outcome detrimental to States’ interests. दिलचस्प रूप से, वित्त आयोग ने साथ ही यह भी स्वीकार किया कि इन करों पर दीर्घकालिक निर्भरता **“अनिच्छनीय”** है, और चेतावनी दी कि यदि केंद्र इन्हें तरजीह देता रहा, तो वह “मानक कर साधनों” में रुचि खो सकता है, जो राज्यों के हितों के लिए हानिकारक होगा।
- Furthermore, the FC points to “recent shifts in the external security and defence environment” as a justification for increased defence spending, while asserting that the Centre has demonstrated a “high degree of effectiveness” in infrastructure building, necessitating greater financial support. इसके अतिरिक्त, वित्त आयोग ने रक्षा व्यय बढ़ाने के औचित्य के रूप में “बाह्य सुरक्षा और रक्षा वातावरण में हालिया बदलावों” का उल्लेख किया, तथा यह दावा किया कि केंद्र ने अवसंरचना निर्माण में “उच्च स्तर की प्रभावशीलता” दिखाई है, जिससे अधिक वित्तीय समर्थन आवश्यक हो जाता है।
- Also, it maintains that the current distribution of tax revenues “gives States sufficient resources to discharge their constitutional responsibilities”. साथ ही, उसने कहा कि कर राजस्व का वर्तमान वितरण “राज्यों को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए पर्याप्त संसाधन देता है।”
- It concludes by suggesting that the resolution lies in a mutual agreement between the Centre and the States, whereby the Centre voluntarily transitions a large part of its revenue collection from cesses and surcharges back into the divisible pool of regular taxes. अंत में, उसने सुझाव दिया कि समाधान केंद्र और राज्यों के बीच आपसी सहमति में है, जिसके तहत केंद्र स्वेच्छा से अपने राजस्व संग्रह का बड़ा हिस्सा उपकर और अधिभार से हटाकर नियमित करों के विभाज्य कोष में वापस ले आए।
- The FC’s interpretation of the fiscal landscape ultimately raises more questions than it answers. वित्तीय परिदृश्य की वित्त आयोग की व्याख्या अंततः उत्तरों से अधिक प्रश्न खड़े करती है।



- First, could the architects of the Constitution have ever envisioned such a disproportionate rise in cesses and surcharges?
पहला, क्या संविधान निर्माताओं ने कभी उपकर और अधिभार में इतनी असमान वृद्धि की कल्पना की होगी?
- Second, by declaring a cap on cess as “imprudent,” has the FC not effectively forced the Centre to draw its own boundary, by refusing to play mediator?
दूसरा, उपकर पर सीमा को “अविवेकपूर्ण” बताकर क्या वित्त आयोग ने मध्यस्थ की भूमिका निभाने से इनकार करके केंद्र को अपनी सीमा स्वयं तय करने के लिए मजबूर नहीं कर दिया?
- Third, doesn't the claim that the Centre demonstrates efficiency in infrastructure ignore the fact that high-performing States are getting the raw end of the bargain?
तीसरा, क्या अवसंरचना में केंद्र की दक्षता का दावा इस तथ्य की अनदेखी नहीं करता कि उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सौदे में नुकसान उठाना पड़ रहा है?
- Finally, if the States truly possess “sufficient” resources, why have nearly all of them — regardless of political affiliation — unanimously demanded a larger share?
अंत में, यदि राज्यों के पास वास्तव में “पर्याप्त” संसाधन हैं, तो लगभग सभी राज्यों ने — राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना — सर्वसम्मति से अधिक हिस्सेदारी की मांग क्यों की है?

GS Paper II: Governance,	
TOPICS COVERED	04 February 2026
1.	‘Global aid cuts could lead to 22.6 million additional deaths’ ‘वैश्विक सहायता में कटौती से 22.6 मिलियन अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं’



'Global aid cuts could lead to 22.6 million additional deaths'

GS II: Governance

Bindu Shajan Perappadan
NEW DELHI

The drop in global aid could lead to 22.6 million additional deaths by 2030 across 93 low- and middle-income countries, including 5.4 million children under the age of five, warned a new peer-reviewed study by the Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), published in the *Lancet Global Health* on Tuesday.

The analysis showed that Sub-Saharan Africa, which accounts for 38 of the 93 countries analysed, is particularly at risk, and with 21 of the countries in Asia (including India), 12 in Latin America, 12 in West Asia and North Africa, and 10 in Europe, severe cuts to official development assistance (ODA) could be felt globally.

ODA achievements

Over the course of 2002 to 2021, the ODA helped reduce child mortality by 39%, prevented HIV/AIDS deaths by 70%, and achieved a 56% reduction in deaths from both malaria and nutritional deficiencies. Additionally, it improved various global health outcomes in these 93 countries, which are home to 75% of the world's population.

ODA has helped reduce child mortality by 39%; prevent HIV/AIDS deaths by 70%

In 2024, international aid fell for the first time in six years, and the United States, the United Kingdom, France, and Germany significantly reduced their ODA contributions for the first time in nearly 30 years. These cuts sparked the need to understand what this could mean at the human level for communities all over the world, the study said.

"Our analyses show that development assistance is among the most effective global health interventions available," said Davide Rascella, coordinator of the study, ICREA Research Professor at ISGlobal and at the Brazilian Institute of Collective Health.

"Asia's scale means that when health systems fail, the human cost is immense, and in 21 countries across the region, decades of development gains are now at risk of being reversed," said Deepali Khanna, senior vice-president and head of Asia, The Rockefeller Foundation, which supported the study.

2002 से 2021 की अवधि में, ODA ने बाल मृत्यु दर को 39% तक कम करने में मदद की, HIV/AIDS से होने वाली मौतों को 70% तक रोका, और मलेरिया तथा पोषण संबंधी deficiencies से होने वाली मौतों में 56% की कमी हासिल की

- Additionally, it improved various global health outcomes in these 93 countries, which are home to 75% of the world's population. इसके अतिरिक्त, इसने इन 93 देशों में विभिन्न वैश्विक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार किया, जो दुनिया की 75% आबादी का घर हैं
- In 2024, international aid fell for the first time in six years, and the United States, the United Kingdom, France, and Germany significantly reduced their ODA contributions for

'Global aid cuts could lead to 22.6 million additional deaths'

'वैश्विक सहायता में कटौती से 22.6 मिलियन अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं'

- 'Global aid cuts could lead to 22.6 million additional deaths'

'वैश्विक सहायता में कटौती से 22.6 मिलियन अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं'

- The drop in global aid could lead to 22.6 million additional deaths by 2030 across 93 low- and middle-income countries, including 5.4 million children under the age of five, warned a new peer-reviewed study by the Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), published in the *Lancet Global Health* on Tuesday.

वैश्विक सहायता में गिरावट 2030 तक 93 निम्न- और मध्यम-आय वाले देशों में 22.6 मिलियन अतिरिक्त मौतों का कारण बन सकती है, जिनमें पांच वर्ष से कम आयु के 5.4 मिलियन बच्चे शामिल हैं, यह चेतावनी बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ (ISGlobal) के एक नए समीक्षित अध्ययन में दी गई है, जो मंगलवार को द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित हुआ

- The analysis showed that Sub-Saharan Africa, which accounts for 38 of the 93 countries analysed, is particularly at risk, and with 21 of the countries in Asia (including India), 12 in Latin America, 12 in West Asia and North Africa, and 10 in Europe, severe cuts to official development assistance (ODA) could be felt globally.

विश्लेषण में दिखाया गया कि उप-सहारा अफ्रीका, जो विश्लेषित 93 देशों में से 38 का प्रतिनिधित्व करता है, विशेष रूप से जोखिम में है, और एशिया के 21 देश (भारत सहित), लैटिन अमेरिका के 12, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के 12, और यूरोप के 10 देशों के साथ, आधिकारिक विकास सहायता (ODA) में गंभीर कटौती का प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा सकता है

ODA achievements

ODA की उपलब्धियां

- Over the course of 2002 to 2021, the ODA helped reduce child mortality by 39%, prevented HIV/AIDS deaths by 70%, and achieved a 56% reduction in deaths from both malaria and nutritional deficiencies.




the first time in nearly **30 years**.

2024 में, अंतरराष्ट्रीय सहायता छह वर्षों में पहली बार घटी, और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, और जर्मनी ने लगभग **30 वर्षों** में पहली बार अपने **ODA योगदान** में उल्लेखनीय कमी की

- These cuts sparked the need to understand what this could mean at the **human level** for communities all over the world, the study said.
अध्ययन के अनुसार, इन कटौतियों ने यह समझने की आवश्यकता पैदा की कि इसका दुनिया भर के समुदायों के लिए **मानवीय स्तर** पर क्या अर्थ हो सकता है
- “Our analyses show that **development assistance** is among the most **effective global health interventions** available,” said **Davide Rasella**, coordinator of the study, **ICREA Research Professor at ISGlobal** and at the **Brazilian Institute of Collective Health**.
“हमारे विश्लेषण दिखाते हैं कि **विकास सहायता** उपलब्ध सबसे **प्रभावी वैश्विक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों** में से एक है,” अध्ययन के समन्वयक **डेविडे रसेला**, **ISGlobal** में **ICREA अनुसंधान प्रोफेसर** और **ब्राज़ीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ कलेक्टिव हेल्थ** में प्रोफेसर ने कहा
- “**Asia’s scale** means that when **health systems fail**, the **human cost** is immense, and in **21 countries** across the region, **decades of development gains** are now at risk of being reversed,” said **Deepali Khanna**, senior vice- president and head of Asia, **The Rockefeller Foundation**, which supported the study.
“**एशिया का पैमाना** यह दर्शाता है कि जब **स्वास्थ्य प्रणालियां विफल** होती हैं, तो **मानवीय लागत** अत्यधिक होती है, and पूरे क्षेत्र के **21 देशों** में **दशकों की विकास उपलब्धियां** अब **पीछे जाने** के जोखिम में हैं,” अध्ययन का समर्थन करने वाली **द रॉकफेलर फाउंडेशन** की **एशिया प्रमुख और वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपाली खन्ना** ने कहा

GS Paper II: International Relations	
TOPICS COVERED	04 February 2026
1.	India, Bhutan to strengthen cooperation in power sector भारत, भूटान बिजली क्षेत्र में सहयोग मजबूत करेंगे
2.	U.S. shoots down Iranian drone that approached aircraft carrier ‘अमेरिका ने विमानवाहक पोत के पास आए ईरानी ड्रोन को मार गिराया’
3.	Russia sounds alarm as New START treaty is set to expire न्यू स्टार्ट संधि की समाप्ति तय होने पर रूस ने चेतावनी दी



GS II: IR

India, Bhutan to strengthen cooperation in power sector

India and Bhutan will strengthen cooperation in the power sector, an official statement said on Tuesday. Minister of Energy and Natural Resources of Bhutan Lyonpo Gem Tshering met Union Power Minister Manohar Lal Khattar to strengthen cooperation in the power sector, the power ministry said. “During discussions, both sides deliberated on the commercial optimisation of power output from the Punatsangchhu-II Hydroelectric Project (1020 MW),” it said. PTI

India, Bhutan to strengthen cooperation in power sector **भारत, भूटान बिजली क्षेत्र में सहयोग मजबूत करेंगे**

- India, Bhutan to strengthen cooperation in **power sector** भारत, भूटान **बिजली क्षेत्र** में सहयोग मजबूत करेंगे
- **India and Bhutan** will strengthen cooperation in the power sector, an official statement said on **Tuesday**. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि **भारत और भूटान मंगलवार** को बिजली क्षेत्र में सहयोग मजबूत करेंगे
- **Minister of Energy and Natural Resources of Bhutan Lyonpo Gem Tshering met Union Power Minister Manohar Lal Khattar** to strengthen cooperation in the power sector, the **power ministry** said.
भूटान के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री ल्योपो जेम त्शेरिंग ने बिजली क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए **केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर** से मुलाकात की, **विद्युत मंत्रालय** ने कहा
- “During discussions, both sides deliberated on the **commercial optimisation of power output** from the **Punatsangchhu-II Hydroelectric Project (1020 MW)**,” it said.



“चर्चा के दौरान, दोनों पक्षों ने पुनात्सांगछू-। जलविद्युत परियोजना (1020 मेगावाट) से बिजली उत्पादन के वाणिज्यिक अनुकूलन पर विचार-विमर्श किया,” बयान में कहा गया

‘U.S. shoots down Iranian drone that approached aircraft carrier’



GS II: IR

AFP

U.S. Central Command said on Tuesday that a U.S. Navy fighter jet shot down an Iranian drone that was “aggressively approaching” the aircraft carrier *USS Abraham Lincoln* with “unclear intent” in the Arabian Sea. The *Shahed-139* drone was shot down by an F-35C fighter jet from the *Lincoln*. AP

जेट द्वारा मार गिराया गया

U.S. shoots down Iranian drone that approached aircraft carrier’

‘अमेरिका ने विमानवाहक पोत के पास आए ईरानी ड्रोन को मार गिराया’

• U.S. Central Command said on Tuesday that a U.S. Navy fighter jet shot down an Iranian drone that was “aggressively approaching” the aircraft carrier *USS Abraham Lincoln* with “unclear intent” in the Arabian Sea

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी नौसेना के एक फाइटर जेट ने अरब सागर में विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास “आक्रामक रूप से बढ़ रहे” और “अस्पष्ट इरादे” वाले एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया

• The *Shahed-139* drone was shot down by an F-35C fighter jet from the *Lincoln* शाहेद-139 ड्रोन को लिंकन से संचालित एफ-35सी फाइटर

Russia sounds alarm as New START treaty is set to expire

The last nuclear treaty between Washington and Moscow is set to expire tomorrow; Moscow awaiting U.S. response to one-year extension offer; Russian drones strike Ukraine ahead of talks

GS II: IR

Agence France-Presse
MOSCOW

The Kremlin warned on Tuesday that the world was heading into a “dangerous” moment as the last U.S.-Russia nuclear treaty is set to expire this week.

New START, the last nuclear treaty between Washington and Moscow after decades of agreements dating to the Cold War, is set to expire on Thursday, and with it restrictions on the two top nuclear powers.

“In just a few days, the world will be in a more dangerous position than it has ever been before,” spokesperson Dmitry Peskov



Vladimir Putin and Donald Trump during a press meet at Joint Base Elmendorf-Richardson, in Alaska, in August 2025. REUTERS

said. The Kremlin, which has offered a one-year extension of the treaty, said “we still haven’t received a response from the Americans to this initiative”.

If the treaty is not extended, the world’s top two nuclear powers would “be left without a fundamental document that would limit and control

these arsenals,” for the first time.

U.S. President Donald Trump, who cut many international agreements limiting the United States, said in September that an extension of the New START “sounds like a good idea,” but little has changed since then.

Meanwhile, Russia fired around 450 long-range drones and 70 missiles of various types at Ukraine in a major attack overnight, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said.

The barrage came a day before the two countries were due to attend U.S.-brokered talks in Abu Dhabi.



Russia sounds alarm as New START treaty is set to expire न्यू स्टार्ट संधि की समाप्ति तय होने पर रूस ने चेतावनी दी

- The last nuclear treaty between Washington and Moscow is set to expire tomorrow; Moscow awaiting U.S. response to one-year extension offer; Russian drones strike Ukraine ahead of talks
वाशिंगटन और माँस्को के बीच अंतिम परमाणु संधि कल समाप्त होने वाली है; माँस्को को एक वर्ष के विस्तार प्रस्ताव पर अमेरिकी प्रतिक्रिया का इंतजार; बातचीत से पहले रूसी ड्रोन ने यूक्रेन पर हमला किया
- The Kremlin warned on Tuesday that the world was heading into a “dangerous” moment as the last U.S.-Russia nuclear treaty is set to expire this week
क्रेमलिन ने मंगलवार को चेतावनी दी कि दुनिया एक “खतरनाक” क्षण की ओर बढ़ रही है क्योंकि अंतिम अमेरिका-रूस परमाणु संधि इस सप्ताह समाप्त होने वाली है
- **New START**, the last nuclear treaty between Washington and Moscow after decades of agreements dating to the Cold War, is set to expire on Thursday, and with it restrictions on the two top nuclear powers
न्यू स्टार्ट, जो शीत युद्ध के समय से चली आ रही दशकों की संधियों के बाद वाशिंगटन और माँस्को के बीच अंतिम परमाणु संधि है, गुरुवार को समाप्त होने वाली है और इसके साथ ही दो प्रमुख परमाणु शक्तियों पर लगे प्रतिबंध भी खत्म हो जाएंगे
- “In just a few days, the world will be in a more dangerous position than it has ever been before,” spokesperson Dmitry Peskov said
“सिर्फ कुछ दिनों में दुनिया पहले से कहीं अधिक खतरनाक स्थिति में होगी,” प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा
- The Kremlin, which has offered a one-year extension of the treaty, said “we still haven’t received a response from the Americans to this initiative”
क्रेमलिन, जिसने संधि के एक वर्ष के विस्तार का प्रस्ताव दिया है, ने कहा, “हमें अभी तक इस पहल पर अमेरिकियों की प्रतिक्रिया नहीं मिली है”
- If the treaty is not extended, the world’s top two nuclear powers would “be left without a fundamental document that would limit and control these arsenals,” for the first time
यदि संधि का विस्तार नहीं हुआ, तो दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां पहली बार ऐसे मौलिक दस्तावेज के बिना रह जाएंगी जो इन हथियार भंडारों को सीमित और नियंत्रित करता है
- U.S. President Donald Trump, who cut many international agreements limiting the United States, said in September that an extension of the New START “sounds like a good idea,” but little has changed since then
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अमेरिका को सीमित करने वाले कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों को खत्म किया, ने सितंबर में कहा था कि न्यू स्टार्ट का विस्तार “एक अच्छा विचार लगता है,” लेकिन तब से बहुत कम बदलाव हुआ है
- Meanwhile, Russia fired around 450 long-range drones and 70 missiles of various types at Ukraine in a major attack overnight, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said
इस बीच, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की ने कहा कि रूस ने रातोंरात एक बड़े हमले में यूक्रेन पर लगभग 450 लंबी दूरी के ड्रोन और 70 मिसाइलें दागीं
- The barrage came a day before the two countries were due to attend U.S.-brokered talks in Abu Dhabi
यह हमला उस समय हुआ जब दोनों देशों को अबू धाबी में होने वाली अमेरिका-प्रायोजित वार्ता में शामिल होने से एक दिन पहले जाना था



GS Paper III: Economy,	
TOPICS COVERED	04 February 2026
1.	U.S. deal excludes sensitive sectors: Goyal अमेरिका समझौते में संवेदनशील क्षेत्रों को बाहर रखा गया: गoyal
2.	Exporters relieved, farmers upset over trade agreement व्यापार समझौते पर निर्यातक राहत में, किसान नाराज़
3.	Trade deal: unanswered questions remain व्यापार समझौता: अनुत्तरित प्रश्न बने हुए हैं
4.	End in sight अंत निकट है
5.	India's next industrial shift — electrons over molecules भारत का अगला औद्योगिक बदलाव — अणुओं पर इलेक्ट्रॉनों की प्राथमिकता
6.	Why the government has increased capital spending for the defence sector सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजीगत खर्च क्यों बढ़ाया है
7.	Indian, U.S. industry bodies and leaders laud tariff deal भारतीय, अमेरिकी उद्योग निकायों और नेताओं ने टैरिफ समझौते की सराहना की
8.	Trump's push to channel crude oil into India won't defy market forces भारत में कच्चा तेल भेजने की ट्रंप की कोशिश बाजार शक्तियों को नहीं झुका पाएगी

U.S. deal excludes sensitive sectors: Goyal

Minister claims Opposition's 'actions' prevented statement by Centre on the issue in Parliament

He says more details will be made public after the trade deal is formally inked by both parties

Goyal stated that the pact is superior to those of neighbouring countries and competitors

GS III: Economy
T.C.A. Sharad Raghavan
NEW DELHI

The trade deal with the United States, announced by U.S. President Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi on social media late on Monday night, will exclude sensitive agricultural items and dairy, Commerce Minister Piyush Goyal said on Tuesday, adding that the details would be made public "soon".

Under the deal, the U.S. has agreed to lower its 25% "reciprocal" tariffs on India to 18% and entirely remove the additional "penalty" tariffs of 25% it had imposed on India for its import of Russian oil.

"The trade deal finalised by India with the U.S. is the best among India's neighbours and its competitors," Mr. Goyal told

presspersons. "PM Modi has always protected the agriculture and dairy sectors and has never compromised on their interests. In the U.S. trade deal as well, India's sensitive sectors of agriculture and dairy have been excluded," he said.

Beyond this, he did not specify any other details of what India had conceded to the U.S. Nor did he address Mr. Trump's claims that India would stop buying Russian oil, increase oil purchases from Venezuela, and increase overall purchases from the U.S.

Opposition blamed

He attacked the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, the Congress, and its allies, saying it was because of their actions in Parliament on Monday that he was



The reciprocal tariff was set by the U.S., and they were the ones who had to reduce it to 18%, that news would obviously come from the U.S.

PIYUSH GOYAL
Union Commerce Minister

conveying the information on the trade deal at a press conference and not on the floor of the House. "Ordinarily, we would have wanted to speak in Parliament about this," he said.

"But, as you all saw, the way the Opposition, especially the Rahul Gandhi-led Congress and their allies, the DMK, the Trinamool Congress, and the SP [the Samajwadi Party], behaved in Parliament,

reaching the Speaker's dais and insulting him, we have had to speak before you outside the House."

He said that the deal was in the "final stages of detailing" between the negotiating teams of the two countries. "As soon as the final understanding of the deal is inked, the joint statement is finalised, and technical processes are completed, full details will be shared," he said.

Industry bodies laud tariff deal

NEW DELHI
Industry bodies and leaders in both India and the U.S., have welcomed the announcement of a deal between the two countries under which tariffs on India are set to be slashed to 18%. » PAGE 12

In a rare public admission, Mr. Goyal acknowledged the impact of the U.S. tariffs on several sectors.

"Our farmers and exporters were all affected by the 50% tariffs," he said.

"Our marine exporters were facing difficulties. The textile sector had also been facing the need for reduced tariffs. This is a deal that will protect the interests of every Indian and

provide huge opportunities for all the people of India, and will protect the sensitive sectors, including agriculture and dairy." Mr. Goyal said, "It will open up huge opportunities for our labour-intensive export sectors such as textiles, apparel, plastics, home decor, leather and footwear, gems and jewellery, organic chemicals, rubber goods, machinery, and aircraft components."

Trump's assertions

Mr. Goyal also sought to address questions from the Opposition as to why the deal was first announced by Mr. Trump.

"The reciprocal tariff was set by the U.S., and they were the ones who had to reduce tariffs, so when they did reduce it to 18%, that news would obviously come from the

U.S," he explained.

In his post on Truth Social, Mr. Trump also made several assertions about what Mr. Modi had allegedly agreed to on India's behalf. One of these was that India would buy "over \$500 billion dollars [sic] worth of U.S. energy, technology, agricultural, coal, and many other products".

According to sources in the Indian government, the \$500 billion worth of purchases is to be spread over five years from when the deal comes into effect, and is a sign of "India's intent to import" equipment for data centres, increase civil nuclear cooperation, and increase the imports of advanced AI chips.

EDITORIAL
» PAGE 8
RELATED REPORT ON
» PAGE 5

U.S. deal excludes sensitive sectors: Goyal

अमेरिका समझौते में संवेदनशील क्षेत्रों को बाहर रखा गया: गoyal

- U.S. deal excludes sensitive sectors: Goyal
अमेरिका समझौते में संवेदनशील क्षेत्र बाहर: गoyal
- Minister claims Opposition's 'actions' prevented statement by Centre on the issue in Parliament
मंत्री का दावा, विपक्ष की 'कार्रवाइयों' के कारण संसद में इस मुद्दे पर केंद्र का बयान नहीं हो सका



- He says more details will be made public after the trade deal is formally inked by both parties उन्होंने कहा कि **दोनों पक्षों** द्वारा **व्यापार समझौते** पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर होने के बाद अधिक विवरण सार्वजनिक किए जाएंगे
- Goyal stated that the pact is superior to those of neighbouring countries and competitors **गोयल** ने कहा कि यह **समझौता** पड़ोसी देशों और प्रतिस्पर्धियों से बेहतर है
- The trade deal with the United States, announced by U.S. President **Donald Trump** and Prime Minister **Narendra Modi** on social media late on Monday night, will exclude sensitive agricultural items and dairy, Commerce Minister **Piyush Goyal** said on Tuesday, adding that the details would be made public “soon”.
सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर **अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप** और **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी** द्वारा घोषित **संयुक्त राज्य अमेरिका** के साथ **व्यापार समझौते** में **संवेदनशील कृषि वस्तुओं** और **डेयरी** को बाहर रखा जाएगा, ऐसा **वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल** ने मंगलवार को कहा और जोड़ा कि विवरण **“जल्द”** सार्वजनिक किए जाएंगे
- Under the deal, the U.S. has agreed to lower its **25% “reciprocal” tariffs** on India to **18%** and entirely remove the additional “penalty” tariffs of **25%** it had imposed on India for its import of **Russian oil**.
समझौते के तहत, **अमेरिका** ने भारत पर लगाए गए **25% “पारस्परिक” शुल्क** को घटाकर **18%** करने और **रूसी तेल** आयात के कारण लगाए गए **25%** अतिरिक्त **“दंडात्मक”** शुल्क को पूरी तरह हटाने पर सहमति दी है
- “The trade deal finalised by India with the U.S. is the best among India’s neighbours and its competitors,” Mr. Goyal told presspersons.
“भारत द्वारा **अमेरिका** के साथ अंतिम रूप दिया गया **व्यापार समझौता** भारत के पड़ोसियों और प्रतिस्पर्धियों में सबसे बेहतर है,” **श्री गोयल** ने पत्रकारों से कहा
- “PM Modi has always protected the agriculture and dairy sectors and has never compromised on their interests. In the U.S. trade deal as well, India’s sensitive sectors of agriculture and dairy have been excluded,” he said.
“**प्रधानमंत्री मोदी** ने हमेशा **कृषि** और **डेयरी** क्षेत्रों की रक्षा की है और उनके हितों से कभी समझौता नहीं किया है। **अमेरिका व्यापार समझौते** में भी भारत के **संवेदनशील कृषि और डेयरी क्षेत्र** बाहर रखे गए हैं,” उन्होंने कहा
- Beyond this, he did not specify any other details of what India had conceded to the U.S.
इसके अलावा, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि भारत ने **अमेरिका** को और क्या रियायतें दी हैं
- Nor did he address Mr. Trump’s claims that India would stop buying **Russian oil**, increase oil purchases from **Venezuela**, and increase overall purchases from the **U.S.**.
न ही उन्होंने **श्री ट्रंप** के उन दावों पर प्रतिक्रिया दी कि भारत **रूसी तेल** खरीदना बंद करेगा, **वेनेजुएला** से तेल खरीद बढ़ाएगा और **अमेरिका** से कुल खरीद बढ़ाएगा

Opposition blamed विपक्ष को दोष

- He attacked the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, **Rahul Gandhi**, the **Congress**, and its allies, saying it was because of their actions in Parliament on Monday that he was conveying the information on the trade deal at a press conference and not on the floor of the House.
उन्होंने **लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी**, **कांग्रेस** और उसके सहयोगियों पर हमला करते हुए कहा कि सोमवार को संसद में उनकी **कार्रवाइयों** के कारण वह व्यापार समझौते की जानकारी **सदन के पटल** पर नहीं बल्कि **प्रेस कॉन्फ्रेंस** में दे रहे हैं
- “Ordinarily, we would have wanted to speak in Parliament about this,” he said.
“सामान्यतः हम इस पर **संसद** में बोलना चाहते,” उन्होंने कहा
- “But, as you all saw, the way the Opposition, especially the Rahul Gandhi-led Congress and their allies, the **DMK**, the **Trinamool Congress**, and the **SP [the Samajwadi Party]**, behaved in Parliament, reaching the Speaker’s dais and insulting him, we have had to speak before you outside the House.”
“लेकिन, जैसा कि आप सभी ने देखा, जिस तरह विपक्ष, विशेषकर **राहुल गांधी** के नेतृत्व वाली **कांग्रेस** और उसके सहयोगी **डीएमके**, **तृणमूल कांग्रेस** और **एसपी [समाजवादी पार्टी]** ने संसद में व्यवहार किया, **स्पीकर** के आसन तक पहुंचकर उनका अपमान किया, हमें सदन के बाहर आपसे बात करनी पड़ी”



- He said that the deal was in the “final stages of detailing” between the negotiating teams of the two countries.
उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों की वार्ता टीमों के बीच “विवरण तय करने के अंतिम चरण” में है
- “As soon as the final understanding of the deal is inked, the joint statement is finalised, and technical processes are completed, full details will be shared,” he said.
उन्होंने कहा, “जैसे ही समझौते की अंतिम समझ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, संयुक्त बयान अंतिम होगा और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी होंगी, पूरी जानकारी साझा की जाएगी”
- In a rare public admission, Mr. Goyal acknowledged the impact of the U.S. tariffs on several sectors.
एक दुर्लभ सार्वजनिक स्वीकारोक्ति में, श्री गोयल ने कई क्षेत्रों पर अमेरिकी शुल्कों के प्रभाव को स्वीकार किया
- “Our farmers and exporters were all affected by the 50% tariffs,” he said.
उन्होंने कहा, “हमारे किसान और निर्यातक सभी 50% शुल्कों से प्रभावित थे”
- “Our marine exporters were facing difficulties. The textile sector had also been facing the need for reduced tariffs.”
“हमारे समुद्री निर्यातक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। वस्त्र क्षेत्र भी कम शुल्क की आवश्यकता महसूस कर रहा था”
- “This is a deal that will protect the interests of every Indian and provide huge opportunities for all the people of India, and will protect the sensitive sectors, including agriculture and dairy.”
“यह ऐसा समझौता है जो हर भारतीय के हितों की रक्षा करेगा और भारत के लोगों को बड़े अवसर देगा, तथा कृषि और डेयरी सहित संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करेगा”
- Mr. Goyal said, “It will open up huge opportunities for our labour-intensive export sectors such as textiles, apparel, plastics, home decor, leather and footwear, gems and jewellery, organic chemicals, rubber goods, machinery, and aircraft components.”
श्री गोयल ने कहा, “यह हमारे श्रम-प्रधान निर्यात क्षेत्रों जैसे वस्त्र, परिधान, प्लास्टिक, होम डेकोर, चमड़ा और जूते, रत्न और आभूषण, ऑर्गेनिक केमिकल्स, रबर उत्पाद, मशीनरी और विमान घटकों के लिए बड़े अवसर खोलेंगा”

Trump's assertions ट्रंप के दावे

- Mr. Goyal also sought to address questions from the Opposition as to why the deal was first announced by Mr. Trump.
श्री गोयल ने विपक्ष के उन सवालियों का भी जवाब देने की कोशिश की कि समझौते की घोषणा पहले श्री ट्रंप ने क्यों की
- “The reciprocal tariff was set by the U.S., and they were the ones who had to reduce tariffs, so when they did reduce it to 18%, that news would obviously come from the U.S,” he explained.
उन्होंने समझाया, “पारस्परिक शुल्क अमेरिका ने तय किया था और उन्हें ही शुल्क घटाना था, इसलिए जब उन्होंने इसे 18% किया, तो यह खबर स्वाभाविक रूप से अमेरिका से ही आएगी”
- In his post on Truth Social, Mr. Trump also made several assertions about what Mr. Modi had allegedly agreed to on India's behalf.
ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में श्री ट्रंप ने यह भी कई दावे किए कि श्री मोदी ने भारत की ओर से किन बातों पर कथित रूप से सहमति दी
- One of these was that India would buy “over \$500 billion dollars [sic] worth of U.S. energy, technology, agricultural, coal, and many other products”.
इनमें से एक दावा यह था कि भारत “\$500 बिलियन डॉलर से अधिक” के अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य कई उत्पाद खरीदेगा
- According to sources in the Indian government, the \$500 billion worth of purchases is to be spread over five years from when the deal comes into effect, and is a sign of “India's intent to import” equipment for data centres, increase civil nuclear cooperation, and increase the imports of advanced AI chips.
भारतीय सरकार के स्रोतों के अनुसार, \$500 बिलियन की यह खरीद पांच वर्षों में होगी, जब से समझौता लागू होगा, और यह डेटा सेंटरों के लिए उपकरण आयात, नागरिक परमाणु सहयोग बढ़ाने और उन्नत एआई चिप्स के आयात को बढ़ाने के “भारत के इरादे” का संकेत है



Exporters relieved, farmers upset over trade agreement

GS III: Economy

A. M. Jigeesha

NEW DELHI

Exporters of agriculture products, fisheries, and seafood were relieved after the announcement of the trade deal between India and the United States, but farmers expressed concern about the possible import of crops such as soya bean, cotton, maize, and wheat, and trade unions warned that the deal would hurt Indian industries and workers.

“We are back in the business now,” Alex Ninan of the Seafood Exporters Association of India (SEAI) told *The Hindu*. “We are confident that with the conclusion of the trade deal and lowering of tariffs to 18%, quantum of export of seafood from India to U.S. will show an increase and soon reach back to the previous levels,” said SEAI president G. Pawan Kumar.

The Samyukt Kisan Mor-

cha (SKM), an umbrella group of farm outfits, termed the deal as a “betrayal of the people”.

Allowing zero per cent import tariff on U.S. goods is a surrender to the pressure of U.S. imperialism, the SKM said.

“This trade deal to allow Indian markets to be flooded by highly subsidised U.S. agricultural products will devastate the entire peasantry in India. The U.S. has only 18.8 lakh farmers as per the recent survey in 2024, compared to 14.65 crore operational holdings in India as per the agricultural census of 2015,” the SKM said, urging farmers to join the general strike on February 12.

The Centre of Indian Trade Unions said if the deal comes into effect, it will be the most deadly action against the interests of workers and peasants, and Indian economic sovereignty at large.

president G. Pawan Kumar.

SEAI अध्यक्ष जी. पवन कुमार ने कहा, “हमें भरोसा है कि व्यापार समझौते के निष्कर्ष और टैरिफ को 18% तक घटाए जाने से भारत से अमेरिका को सीफूड निर्यात की मात्रा बढ़ेगी और जल्द ही पिछले स्तरों तक पहुंच जाएगी”

- The Samyukt Kisan Morcha (SKM), an umbrella group of farm outfits, termed the deal as a “betrayal of the people”.

किसान संगठनों के छत्र संगठन संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने इस समझौते को “लोगों के साथ विश्वासघात” करार दिया

- Allowing zero per cent import tariffs on U.S. goods is a surrender to the pressure of U.S. imperialism, the SKM said.

SKM ने कहा कि अमेरिकी वस्तुओं पर शून्य प्रतिशत आयात शुल्क की अनुमति देना अमेरिकी साम्राज्यवाद के दबाव के आगे समर्पण है

Exporters relieved, farmers upset over trade agreement
व्यापार समझौते पर निर्यातक राहत में, किसान नाराज़

- Exporters relieved, farmers upset over trade agreement
निर्यातक राहत में, किसान व्यापार समझौते से नाराज़

• Exporters of agriculture products, fisheries, and seafood were relieved after the announcement of the trade deal between India and the United States, but farmers expressed concern about the possible import of crops such as soya bean, cotton, maize, and wheat, and trade unions warned that the deal would hurt Indian industries and workers.

कृषि उत्पादों, मत्स्य और सीफूड के निर्यातकों को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की घोषणा के बाद राहत मिली, लेकिन किसानों ने सोयाबीन, कपास, मक्का और गेहूं जैसी फसलों के संभावित आयात को लेकर चिंता जताई, और ट्रेड यूनियनों ने चेतावनी दी कि यह समझौता भारतीय उद्योगों और मज़दूरों को नुकसान पहुंचाएगा

- “We are back in business now,” Alex Ninan of the Seafood Exporters Association of India (SEAI) told *The Hindu*.

“हम अब फिर से कारोबार में लौट आए हैं,” सीफूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEAI) के एलेक्स निनन ने द हिंदू से कहा

- “We are confident that with the conclusion of the trade deal and lowering of tariffs to 18%, the quantum of export of seafood from India to the U.S. will show an increase and soon reach back to the previous levels,” said SEAI



- “This trade deal to allow **Indian markets** to be flooded by **highly subsidised U.S. agricultural products** will devastate the entire **peasantry in India**. The **U.S.** has only **18.8 lakh farmers** as per the recent survey in **2024**, compared to **14.65 crore operational holdings in India** as per the **agricultural census of 2015**,” the **SKM** said, urging farmers to join the **general strike on February 12**.
SKM ने कहा, “यह व्यापार समझौता **भारतीय बाजारों को अत्यधिक सब्सिडी वाले अमेरिकी कृषि उत्पादों से भरने की अनुमति देगा**, जिससे **भारत के पूरे किसान वर्ग का विनाश होगा**। **2024** के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार **अमेरिका में केवल 18.8 लाख किसान हैं**, जबकि **2015 की कृषि जनगणना के अनुसार भारत में 14.65 करोड़ परिचालन जोते हैं**,” और किसानों से **12 फरवरी को होने वाली सामान्य हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया**
- The **Centre of Indian Trade Unions** said if the deal comes into **effect**, it will be the most **deadly action** against the interests of **workers and peasants**, and **Indian economic sovereignty** at large.
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स ने कहा कि यदि यह समझौता **लागू होता है**, तो यह **मज़दूरों और किसानों के हितों तथा समग्र रूप से भारतीय आर्थिक संप्रभुता के खिलाफ सबसे घातक कदम होगा**

Trade deal: unanswered questions remain

GS III: Economy

EXPLAINER

Suhasini Haidar
NEW DELHI

The announcement that the U.S. will reduce “reciprocal” tariffs on India from 25% to 18% and drop the 25% punitive tariffs for Russian oil imports, is a major relief to Indian exporters, and indicates that relations between the two countries are on the mend after a year of severe tensions.

The move on slashing U.S. tariffs was made during External Affairs Minister S. Jaishankar’s visit to Washington to attend a Critical Minerals Ministerial meeting, his seventh visit to the U.S. since Donald Trump’s election as U.S. President. It also comes just weeks after the new U.S. Ambassador Sergio Gor took charge in Delhi, indicating a fresh attempt at resetting ties. However, differences remain between Prime Minister Narendra Modi’s version of the agreement and Mr. Trump’s version,

which will need to be reconciled.

Where is the negotiated text of the trade deal?

Mr. Trump’s reference to a trade deal left it unclear whether he is referring to a deal over cutting reciprocal tariffs, or to the larger “first tranche” of the India-U.S. Free Trade Agreement (FTA) that has been negotiated between trade teams after Mr. Modi’s visit to Washington in February 2025. As a result of the FTA, both sides were expected to drop tariffs, but no details of the FTA, or a negotiated text, have thus far been released by either government.

Tariffs to zero?

Mr. Trump’s claim that India would “reduce Tariffs and Non-Tariff Barriers against the United States, to ZERO”, has not been confirmed by New Delhi, nor has there been any explanation about which lines would reduce to zero. In addition, questions about market access, especially in agricultural sectors like soyabean and dai-



On the same page: External Affairs Minister S. Jaishankar with U.S. Ambassador to India Sergio Gor in New Delhi. PTI

ry which India has been reluctant to open, remain unanswered. U.S. Agriculture Secretary Brooke Rollins said in a post that the new U.S.-India deal will “export more American farm products to India’s massive market, lifting prices, and pumping cash into rural America”.

Indian investment in the U.S.

In his post, Mr. Trump said that Mr. Modi also “committed to buy American” with over \$500 billion dollars for U.S. energy, technology, agriculture, coal, and other products. The government declined to

comment on whether any such commitment has been given, but the size of the figure indicates this is meant to be done over several years, and with multiple sectors involved. It is important to remember that India-U.S. bilateral trade in goods stands at about \$131 billion at present, and India’s current investment in the U.S. is just over \$40 billion.

Has India agreed to drop Russian oil?

In his post on Monday, Mr. Trump said that Mr. Modi had “agreed to stop buying Russian Oil, and to buy much more from the Unit-

ed States and, potentially, Venezuela”, adding that this would help end the war in Ukraine. The Ministry of External Affairs has not responded to requests for comment on this issue. While the government insists that it has no part to play in these commercial decisions, that is contradicted by Mr. Trump’s statement that Mr. Modi had agreed to cutting Russian oil.

Will India have to give concessions on Iran?

Mr. Trump has indicated that the U.S. wants India to buy Venezuelan oil in lieu of Russian oil. This may be a relief for India, but raises questions over its autonomy on important strategic decisions. The U.S. has also threatened to impose 25% tariffs on countries “doing business” with Iran, which includes India, and Washington plans to end its sanctions waiver on Indian investment in Iran’s Chabahar port. In a departure from the past, the Union Budget presented on Sunday contained no allocation for Chabahar.

Trade deal: unanswered questions remain व्यापार समझौता: अनुत्तरित प्रश्न बने हुए हैं

- Trade deal: unanswered questions remain
व्यापार समझौता: अनुत्तरित प्रश्न बने हुए हैं
- The announcement that the **U.S.** will reduce “**reciprocal tariffs**” on India from **25% to 18%** and drop the **25% punitive tariffs** for **Russian oil imports**, is a major relief to **Indian exporters**, and indicates that relations between the **two countries** are on the mend after a year of severe tensions.



यह घोषणा कि अमेरिका भारत पर “पारस्परिक शुल्क” को 25% से 18% तक घटाएगा और रूसी तेल आयात पर लगे 25% दंडात्मक शुल्क हटाएगा, भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी राहत है, और यह दर्शाता है कि एक वर्ष के गंभीर तनाव के बाद दोनों देशों के संबंध सुधर रहे हैं

- The move on slashing **U.S. tariffs** was made during **External Affairs Minister S. Jaishankar's** visit to **Washington** to attend a **Critical Minerals Ministerial meeting**, his **seventh visit to the U.S.** since **Donald Trump's** election as **U.S. President**.
अमेरिकी शुल्क घटाने का यह कदम **विदेश मंत्री एस. जयशंकर** की **वाशिंगटन** यात्रा के दौरान उठाया गया, जहाँ वह **क्रिटिकल मिनेरल्स मंत्रिस्तरीय बैठक** में शामिल हुए, और यह **डोनाल्ड ट्रंप** के **अमेरिकी राष्ट्रपति** चुने जाने के बाद उनकी **अमेरिका की सातवीं यात्रा** थी
- It also comes just weeks after the new **U.S. Ambassador Sergio Gor** took charge in **Delhi**, indicating a fresh attempt at **resetting ties**.
यह **दिल्ली** में नए **अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर** के कार्यभार संभालने के कुछ ही हफ्तों बाद हुआ है, जो **संबंधों को फिर से स्थापित करने** के नए प्रयास का संकेत देता है
- However, differences remain between **Prime Minister Narendra Modi's** version of the agreement and **Mr. Trump's** version, which will need to be reconciled.
हालांकि, समझौते को लेकर **प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी** के संस्करण और **श्री ट्रंप** के संस्करण के बीच मतभेद बने हुए हैं, जिन्हें सुलझाने की आवश्यकता होगी

Where is the negotiated text of the trade deal?

व्यापार समझौते का वार्ताकृत पाठ कहाँ है?

- **Mr. Trump's** reference to a **trade deal** left it unclear whether he is referring to a deal over cutting **reciprocal tariffs**, or to the larger “**first tranche**” of the **India-U.S. Free Trade Agreement (FTA)** that has been negotiated between **trade teams** after **Mr. Modi's** visit to **Washington in February 2025**.
श्री ट्रंप द्वारा **व्यापार समझौते** का उल्लेख यह स्पष्ट नहीं करता कि वह **पारस्परिक शुल्क** घटाने के समझौते की बात कर रहे हैं या **भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** की उस बड़ी “**पहली किश्त**” की, जिस पर **फरवरी 2025** में श्री मोदी की **वाशिंगटन यात्रा** के बाद **व्यापार टीमों** के बीच बातचीत हुई थी
- As a result of the **FTA**, both sides were expected to drop **tariffs**, but no details of the **FTA**, or a **negotiated text**, have thus far been released by either government.
FTA के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों से **शुल्क** घटाने की अपेक्षा थी, लेकिन अब तक किसी भी सरकार द्वारा **FTA** का विवरण या **वार्ताकृत पाठ** जारी नहीं किया गया है

Tariffs to zero?

क्या शुल्क शून्य होंगे?

- **Mr. Trump's** claim that **India** would “**reduce Tariffs and Non-Tariff Barriers** against the **United States**, to **ZERO**”, has not been confirmed by **New Delhi**, nor has there been any explanation about which **lines** would reduce to zero.
श्री ट्रंप का यह दावा कि **भारत संयुक्त राज्य अमेरिका** के खिलाफ “**शुल्क और गैर-शुल्क बाधाएं**” शून्य तक घटाएगा, **नई दिल्ली** द्वारा पुष्टि नहीं किया गया है, और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि कौन-सी **श्रेणियाँ** शून्य होंगी
- In addition, questions about **market access**, especially in **agricultural sectors** like **soyabean** and **dairy** which **India** has been reluctant to open, remain unanswered.
इसके अलावा, **बाजार पहुंच** से जुड़े प्रश्न, विशेषकर **कृषि क्षेत्रों** जैसे **सोयाबीन** और **डेयरी**, जिन्हें **भारत** खोलने में हिचक रहा है, अब भी अनुत्तरित हैं
- **U.S. Agriculture Secretary Brooke Rollins** said in a post that the new **U.S.-India deal** will “**export more American farm products to India's massive market**, lifting prices, and pumping cash into **rural America**”.
अमेरिकी कृषि सचिव **ब्रूक रोलिंस** ने एक पोस्ट में कहा कि नया **अमेरिका-भारत समझौता** **भारतीय विशाल बाजार** में अधिक **अमेरिकी कृषि उत्पादों** का निर्यात करेगा, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और **ग्रामीण अमेरिका** में नकदी पहुंचेगी

Indian investment in the U.S.

अमेरिका में भारतीय निवेश



- In his post, **Mr. Trump** said that **Mr. Modi** also “committed to **buy American**” with over **\$500 billion dollars** for **U.S. energy, technology, agriculture, coal**, and other products.
अपनी पोस्ट में **श्री ट्रंप** ने कहा कि **श्री मोदी** ने **अमेरिकी उत्पाद खरीदने** के लिए **500 अरब डॉलर से अधिक** का वचन दिया है, जिसमें **अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला** और अन्य उत्पाद शामिल हैं
- The **government** declined to comment on whether any such commitment has been given, but the size of the **figure** indicates this is meant to be done over **several years**, and with **multiple sectors** involved.
सरकार ने इस बात पर टिप्पणी करने से इनकार किया कि ऐसा कोई वचन दिया गया है या नहीं, लेकिन इस **आंकड़े** का आकार दर्शाता है कि यह **कई वर्षों** में और **कई क्षेत्रों** के माध्यम से किया जाना है
- It is important to remember that **India-U.S. bilateral trade in goods** stands at about **\$131 billion** at present, and **India’s current investment in the U.S.** is just over **\$40 billion**.
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में **भारत-अमेरिका द्विपक्षीय वस्तु व्यापार** लगभग **131 अरब डॉलर** का है, और **अमेरिका में भारत का मौजूदा निवेश** **40 अरब डॉलर** से थोड़ा अधिक है

Has India agreed to drop Russian oil?

क्या भारत ने रूसी तेल छोड़ने पर सहमति दी है?

- In his post on **Monday**, **Mr. Trump** said that **Mr. Modi** had “agreed to stop buying **Russian Oil**, and to buy much more from the **United States** and, potentially, **Venezuela**”, adding that this would help end the **war in Ukraine**.
सोमवार को अपनी पोस्ट में **श्री ट्रंप** ने कहा कि **श्री मोदी** ने **रूसी तेल खरीदना बंद** करने और **संयुक्त राज्य अमेरिका** तथा संभावित रूप से **वेनेजुएला** से अधिक खरीदने पर सहमति जताई है, और इससे **यूक्रेन युद्ध** समाप्त करने में मदद मिलेगी
- The **Ministry of External Affairs** has not responded to requests for comment on this issue.
विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है
- While the **government** insists that it has no part to play in these **commercial decisions**, that is contradicted by **Mr. Trump’s statement** that **Mr. Modi** had agreed to cutting **Russian oil**.
जबकि **सरकार** का कहना है कि इन **व्यावसायिक निर्णयों** में उसकी कोई भूमिका नहीं है, यह बात **श्री ट्रंप** के उस बयान से विपरीत है जिसमें उन्होंने कहा कि **श्री मोदी** ने **रूसी तेल** में कटौती पर सहमति दी है

Will India have to give concessions on Iran?

क्या भारत को ईरान पर रियायतें देनी होंगी?

- **Mr. Trump** has indicated that the **U.S.** wants **India** to buy **Venezuelan oil** in lieu of **Russian oil**.
श्री ट्रंप ने संकेत दिया है कि **अमेरिका** चाहता है कि **भारत**, **रूसी तेल** के स्थान पर **वेनेजुएला का तेल** खरीदे
- This may be a relief for **India**, but raises questions over its **autonomy** on important **strategic decisions**.
यह **भारत** के लिए राहत हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण **रणनीतिक निर्णयों** पर उसकी **स्वायत्तता** को लेकर सवाल उठती है
- The **U.S.** has also threatened to impose **25% tariffs** on countries “doing business” with **Iran**, which includes **India**, and **Washington** plans to end its **sanctions waiver** on **Indian investment in Iran’s Chabahar port**.
अमेरिका ने **ईरान** के साथ “व्यवसाय करने” वाले देशों पर **25% शुल्क** लगाने की धमकी भी दी है, जिसमें **भारत** शामिल है, और **वाशिंगटन** **ईरान के चाबहार बंदरगाह** में **भारतीय निवेश** पर दी गई **प्रतिबंध छूट** समाप्त करने की योजना बना रहा है
- In a departure from the past, the **Union Budget** presented on **Sunday** contained no **allocation for Chabahar**.
पिछले रुझान से हटकर, **रविवार** को पेश किए गए **केंद्रीय बजट** में **चाबहार** के लिए कोई **आवंटन** शामिल नहीं था



GS III: Economy

End in sight

The U.S. trade deal gives hope that the tariffs ordeal may be over soon

News of the India-United States trade deal has brought palpable relief to a lot of Indian industries, but it also comes with persistent and important questions that remain unanswered despite a press statement by India's Commerce Minister Piyush Goyal. The initial announcement, through social media, while true to U.S. President Donald Trump's form, also marks a departure for India and Prime Minister Narendra Modi. Past trade deal announcements have all been made through more formal channels. The announcement of U.S. tariffs on Indian imports being cut to 18% from the existing 50% is certainly welcome. However, as of now, there is no clarity on when this would be implemented. While Mr. Trump said they would be cut "immediately", Mr. Goyal said that the details will be shared "soon". There is also considerable ambiguity over whether this is the first tranche or 'mini-deal' of a larger Bilateral Trade Agreement, a limited deal affecting only tariffs, or something in between. Mr. Trump's assertion that Mr. Modi has "agreed to stop buying Russian oil" must also be addressed by the Indian government sooner rather than later. Mr. Goyal did not touch upon this in his statement. Stopping Russian oil entirely would not only force India to find alternatives for about a third of its oil imports but would also cast a shadow over its relations with Russia, which is a long-time friend and critical supplier of defence equipment. Such a move would announce a very definite realignment for India and, in that light, deserves to be discussed in Parliament first. Similarly, buying more Venezuelan crude comes with its own refining challenges.

There is also the question of what India has committed to the U.S. in terms of tariff concessions, investments and purchase orders. Apart from making the assurance that sensitive agricultural items and dairy would be excluded, the government has been silent despite several significant assertions being made by Mr. Trump and his team. While the "final stages of detailing" are still to be completed, as Mr. Goyal has said, the light at the end of the tunnel has already buoyed Indian stock markets, bolstered the rupee, and brought especial cheer to labour-intensive sectors such as textiles, apparel, footwear, leather and engineering goods that had been hurting from the 50% tariffs. These sectors already stand to gain from the India-European Union trade deal, which Mr. Goyal has assured will come into effect this year. The tariffs they will face in the U.S. will likely still be slightly higher than those enjoyed by competitors in the South-East Asian countries due to their Most-Favoured Nation status. Yet, the new deal stands to certainly enhance their competitiveness, and the targeted announcements in the Union Budget 2026 should also help bridge this narrower gap.

- Mr. Goyal did not touch upon this in his statement. श्री गोयल ने अपने बयान में इस विषय पर कुछ नहीं कहा।
- Stopping Russian oil entirely would not only force India to find alternatives for about a third of its oil imports but would also cast a shadow over its relations with Russia, which is a long-

End in sight अंत निकट है

News of the India-United States trade deal has brought palpable relief to a lot of Indian industries, but it also comes with persistent and important questions that remain unanswered despite a press statement by India's Commerce Minister Piyush Goyal.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की खबर ने कई भारतीय उद्योगों को स्पष्ट राहत दी है, लेकिन इसके साथ कुछ लगातार और महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं जो भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के प्रेस बयान के बावजूद अनुत्तरित बने हुए हैं।

The initial announcement, through social media, while true to U.S. President Donald Trump's form, also marks a departure for India and Prime Minister Narendra Modi.

सोशल मीडिया के माध्यम से की गई प्रारंभिक घोषणा, यद्यपि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की शैली के अनुरूप है, लेकिन यह भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी एक बदलाव को दर्शाती है।

Past trade deal announcements have all been made through more formal channels.

पूर्व के व्यापार समझौतों की घोषणाएँ अधिक औपचारिक माध्यमों से की जाती रही हैं।

The announcement of U.S. tariffs on Indian imports being cut to 18% from the existing 50% is certainly welcome.

भारतीय आयात पर अमेरिकी शुल्क को मौजूदा 50% से घटाकर 18% किए जाने की घोषणा निश्चित रूप से स्वागतयोग्य है।

However, as of now, there is no clarity on when this would be implemented.

हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इसे कब लागू किया जाएगा।

While Mr. Trump said they would be cut "immediately", Mr. Goyal said that the details will be shared "soon".

जहाँ श्री ट्रम्प ने कहा कि इन्हें "तुरंत" घटाया जाएगा, वहीं श्री गोयल ने कहा कि विवरण "शीघ्र" साझा किए जाएंगे।

There is also considerable ambiguity over whether this is the first tranche or 'mini-deal' of a larger Bilateral Trade Agreement, a limited deal affecting only tariffs, or something in between.

इस बात को लेकर भी काफी अस्पष्टता है कि यह किसी बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते की पहली किश्त या 'छोटा समझौता' है, या केवल शुल्कों को प्रभावित करने वाला सीमित समझौता है, या इनके बीच कुछ और है।

Mr. Trump's assertion that Mr. Modi has "agreed to stop buying Russian oil" must also be addressed by the Indian government sooner rather than later.

श्री ट्रम्प का यह दावा कि श्री मोदी ने "रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई है" इस पर भी भारत सरकार को देर किए बिना प्रतिक्रिया देनी चाहिए।



time friend and critical supplier of defence equipment.

रूसी तेल को पूरी तरह बंद करना न केवल भारत को अपने कुल तेल आयात के लगभग एक-तिहाई के लिए विकल्प खोजने को मजबूर करेगा बल्कि रूस के साथ उसके संबंधों पर भी असर डालेगा, जो लंबे समय से मित्र है और रक्षा उपकरणों का महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है।

- Such a move would announce a very definite realignment for India and, in that light, deserves to be discussed in Parliament first.

ऐसा कदम भारत के लिए एक बहुत स्पष्ट पुनर्संरचना की घोषणा करेगा और इसी दृष्टि से इसे पहले संसद में चर्चा के योग्य माना जाना चाहिए।

- Similarly, buying more Venezuelan crude comes with its own refining challenges. इसी तरह, अधिक वेनेजुएला कच्चा तेल खरीदना अपने साथ अलग परिशोधन चुनौतियाँ भी लाता है।
- There is also the question of what India has committed to the U.S. in terms of tariff concessions, investments and purchase orders. यह प्रश्न भी है कि भारत ने शुल्क रियायतों, निवेश और खरीद आदेशों के संदर्भ में अमेरिका के प्रति क्या प्रतिबद्धताएँ की हैं।
- Apart from making the assurance that sensitive agricultural items and dairy would be excluded, the government has been silent despite several significant assertions being made by Mr. Trump and his team.

संवेदनशील कृषि वस्तुओं और दुग्ध उत्पादों को बाहर रखने का आश्वासन देने के अलावा, श्री ट्रम्प और उनकी टीम द्वारा किए गए कई महत्वपूर्ण दावों के बावजूद सरकार चुप रही है।

- While the “final stages of detailing” are still to be completed, as Mr. Goyal has said, the light at the end of the tunnel has already buoyed Indian stock markets, bolstered the rupee, and brought especial cheer to labour-intensive sectors such as textiles, apparel, footwear, leather and engineering goods that had been hurting from the 50% tariffs.

श्री गoyal के अनुसार, “विवरण के अंतिम चरण” अभी पूरे होने बाकी हैं, फिर भी सुरंग के अंत की रोशनी ने पहले ही भारतीय शेयर बाजारों को सहारा दिया है, रुपये को मजबूत किया है, और श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्त्र, परिधान, जूते, चमड़ा और इंजीनियरिंग वस्तुओं में विशेष उत्साह पैदा किया है जो 50% शुल्क से प्रभावित थे।

- These sectors already stand to gain from the India-European Union trade deal, which Mr. Goyal has assured will come into effect this year.

ये क्षेत्र भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते से भी लाभ पाने की स्थिति में हैं, जिसे श्री गoyal ने इसी वर्ष प्रभावी होने का आश्वासन दिया है।

- The tariffs they will face in the U.S. will likely still be slightly higher than those enjoyed by competitors in the South-East Asian countries due to their Most-Favoured Nation status. अमेरिका में इन पर लगने वाले शुल्क संभवतः दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के प्रतिस्पर्धियों की तुलना में थोड़ा अधिक रहेंगे क्योंकि उन्हें सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है।

- Yet, the new deal stands to certainly enhance their competitiveness, and the targeted announcements in the Union Budget 2026 should also help bridge this narrower gap.

फिर भी, यह नया समझौता निश्चित रूप से उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएगा, और केंद्रीय बजट 2026 में किए गए लक्षित घोषणाएँ इस कम अंतर को पाटने में भी मदद करेंगी।



India's next industrial shift — electrons over molecules

GS III: Economy

MOB

For over a century, the world's factories, kilns and trucks have been powered by "molecules" — oil, coal and gas burnt for heat and motion. That age is now giving way to one where competitiveness is increasingly written in electrons: clean and reliable electricity. The nations that move the fastest from molecules to electrons will not only cut emissions but also win supply chains, capital and jobs.

On this score, China has opened a decisive lead. It is not merely adding renewables at record pace. It is redesigning industry itself to run on grid power. In 2024, close to half of China's industrial energy came as electricity. India is closer to one quarter. The gap directly affects export competitiveness and resilience to fuel price shocks.

Why 'electrons vs molecules' is the right lens
Molecules (oil, gas, LPG, coal, biofuels) are combusted directly in engines, boilers and furnaces. Electrons are delivered by the grid. Coal has already shifted role from on-site combustion to centralised power generation. More electrons mean higher automation, better process control and easier decarbonisation.

Electrification also brings a major efficiency dividend. Electric motors convert over 90% of input energy into useful work, while internal combustion engines typically convert less than 35%. This means each percentage point increase in electrons displaces more fuel molecules than raw energy numbers suggest.



Shrikant Madhav Vaidya

is an energy strategist and a former Chairman of IndianOil Corporation Ltd.

Electrons spell competitiveness, ensuring clean and reliable electricity, supply chains, capital and jobs, and a cut in emissions

This snapshot is revealing. China draws nearly half its industrial energy from electrons and also has the highest share of green electrons. The United States and world average are around 12% while India lags at just 7%. China leads both in the quantity and the quality of electrons even as India remains molecule-dominated.

At the economy level, China, the U.S. and the European Union (EU) all sit near one-third electrification. But China deliberately channels far more electrons into industry than its peers. This reflects strategic intent. As the world's manufacturing hub, China ensures that factories enjoy reliable power and a rising share of clean electricity. That positioning directly strengthens export competitiveness in markets where carbon intensity is increasingly scrutinised.

China's transformation; where India is
China's playbook has been to build the grid, then build electron-first industry. China's surge did not happen by accident. Since 2010, it has poured massive capital into generation, ultra-high-voltage transmission, flexible substations and grid-scale storage. The result is a structural tilt toward electrons across industry. In steel, electric-arc-furnace (EAF) steel rose from about 44 million tonnes in 2010 to 106 million tonnes in 2024. Though only approximately 15% of output, this shift has been policy driven through scrap recycling and preferential tariffs.

In cement, China has electrified grinding mills, materials handling and deployed digital controls. Waste-heat-recovery systems typically contribute 30-35 kWh per tonne of cement. Calcination emissions remain unavoidable, making CCUS pilots essential. India can follow a similar pathway.

China's lesson is simple — electrify what can be electrified today, and reserve molecules only for processes that have no immediate alternative.

What is India's starting line like? India has doubled grid capacity in a decade and is a global leader in annual solar additions. Yet, industrial electrons remain around one-quarter of energy use, and green electrons just 7%-8% of final energy. Three factors explain this gap. First, legacy reliance on on-site combustion locks in molecule use. Second, uneven power quality and reliability discourage firms from designing all-electric processes. Third, policy focuses more on generation than on electrifying industrial processes.

This is a road map to an electron-first industrial decade. In steel, India already produces approximately 30% of steel through EAFs, as compared to approximately 70% in the

U.S. Improving scrap collection, standardisation and trading platforms can lift this share rapidly. Renewable-linked EAF incentives are essential, especially with the EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) targeting steel.

In cement, support pilots of electrified kilns, large-scale waste-heat recovery and carbon capture, utilisation, and storage (CCUS) hubs. Target a 20% reduction in molecule use per tonne this decade while preparing CCUS.

On micro, small and medium enterprises (MSMEs), most MSMEs run on coal boilers and diesel gensets. Transition requires concessional finance for electric boilers and induction furnaces, pooled procurement of renewable power purchase agreements, and technical assistance.

When it comes to digitalisation, this must be embedded in new industrial clusters. Advanced controls reduce power waste, enable demand response, and generate auditable carbon data demanded by global buyers.

Why does this matter beyond climate? First, competitiveness as global buyers increasingly demand low-carbon manufacturing. Green electrons embedded in supply chains decide contract outcomes.

Second, security. Shifting heat and motion to domestically produced electricity reduces exposure to imported oil and gas price shocks.

Third, sovereignty. Industry can locate based on skills and logistics, not fuel availability.

The new industrial race

The global race is not just electrons versus molecules, but also about green electrons versus grey electrons. China has acted strategically. Although its economy-wide electrification (31%) is similar to the U.S. (32%) and the EU (34%), it prioritised industry — nearly half of industrial energy is electrified, with a higher green share than peers. This design gives China a durable manufacturing edge.

India must absorb this lesson. Without a rapid rise in green electrons, India risks CBAM penalties and lost export opportunities, but with bold action, it can seize the initiative.

Policy must aim not just for megawatts of renewables, but for megawatt-hours actually flowing into industry. India should launch a national mission on industrial electrification, significantly raise annual grid investment, mandate electrification in new industrial parks, and provide targeted MSME finance.

The next industrial revolution will be written in electrons, not molecules. India must ensure that it is not left behind.

Industrial electrification snapshot

Green and grey electrons versus molecules

Global picture: industrial electrons and their quality

Region	Green electrons (%)	Grey electrons (%)	Total electrons (%)	Molecules (%)
China	18	29	47	53
The EU	16	18	34	66
U.S.	12	20	32	68
India	7	20	27	73
The world	12	18	30	70

Whole-economy context

Region	Green electrons (%)	Grey electrons (%)	Total electrons (%)	Molecules (%)
China	12	19	31	69
U.S.	13	19	32	68
The EU	17	17	34	66
India	8	19	27	73
The world	12	18	30	70

India's next industrial shift — electrons over molecules

भारत का अगला औद्योगिक बदलाव — अणुओं पर इलेक्ट्रॉनों की प्राथमिकता

- For over a century, the world's factories, kilns and trucks have been powered by "molecules" — oil, coal and gas burnt for heat and motion. एक सदी से अधिक समय से, दुनिया की फैक्ट्रियाँ, भट्टियाँ और ट्रक "अणुओं" — तेल, कोयला और गैस को गर्मी और गति के लिए जलाकर संचालित होते रहे हैं।
- That age is now giving way to one where competitiveness is increasingly written in electrons: clean and reliable electricity. अब वह दौर ऐसे युग को जगह दे रहा है जहाँ प्रतिस्पर्धात्मकता तेजी से इलेक्ट्रॉनों में लिखी जा रही है: स्वच्छ और भरोसेमंद बिजली।
- The nations that move the fastest from molecules to electrons will not only cut emissions but also win supply chains, capital and jobs. जो देश सबसे तेज़ी से अणुओं से इलेक्ट्रॉनों की ओर बढ़ेंगे, वे न केवल उत्सर्जन घटाएँगे बल्कि आपूर्ति शृंखलाएँ, पूँजी और नौकरियाँ भी जीतेंगे।
- On this score, China has opened a decisive lead. इस मामले में, चीन ने निर्णायक बढ़त बना ली है।
- It is not merely adding renewables at record pace. वह केवल रिकॉर्ड गति से नवीकरणीय ऊर्जा नहीं जोड़ रहा है।
- It is redesigning industry itself to run on grid power. वह उद्योग को ही ग्रिड बिजली पर चलने के लिए पुनः डिज़ाइन कर रहा है।



- In **2024**, close to **half** of China's industrial energy came as electricity. **2024** में, चीन की औद्योगिक ऊर्जा का करीब **आधा** हिस्सा बिजली के रूप में आया।
- India is closer to **one quarter**.
भारत का हिस्सा लगभग **एक-चौथाई** के करीब है।
- The gap directly affects export competitiveness and resilience to fuel price shocks.
यह अंतर सीधे **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता** और **ईंधन मूल्य झटकों** के प्रति सहनशीलता को प्रभावित करता है।

Why 'electrons vs molecules' is the right lens 'इलेक्ट्रॉन बनाम अणु' सही दृष्टि क्यों है

- Molecules (**oil, gas, LPG, coal, biofuels**) are combusted directly in engines, boilers and furnaces.
अणुओं (**तेल, गैस, एलपीजी, कोयला, जैव ईंधन**) को इंजनों, बॉयलरों और भट्टियों में सीधे जलाया जाता है।
- Electrons are delivered by the grid.
इलेक्ट्रॉन ग्रिड द्वारा पहुँचाए जाते हैं।
- Coal has already shifted role from on-site combustion to centralised power generation.
कोयले की भूमिका स्थल-आधारित दहन से बदलकर केंद्रीकृत विद्युत उत्पादन में हो चुकी है।
- More electrons mean higher automation, better process control and easier decarbonisation.
अधिक इलेक्ट्रॉनों का मतलब है अधिक स्वचालन, बेहतर प्रक्रिया नियंत्रण और आसान डी-कार्बनीकरण।
- Electrification also brings a major efficiency dividend.
विद्युतीकरण एक बड़ा दक्षता लाभांश भी लाता है।
- Electric motors convert over **90%** of input energy into useful work, while internal combustion engines typically convert less than **35%**.
विद्युत मोटर्स इनपुट ऊर्जा का **90%** से अधिक उपयोगी कार्य में बदल देती हैं, जबकि आंतरिक दहन इंजन सामान्यतः **35%** से कम बदलते हैं।
- This means each percentage point increase in electrons displaces more fuel molecules than raw energy numbers suggest.
इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों में हर प्रतिशत-बिंदु वृद्धि, कच्चे ऊर्जा आँकड़ों की तुलना में अधिक ईंधन अणुओं को विस्थापित करती है।
- This snapshot is revealing.
यह झलक बहुत कुछ उजागर करती है।
- China draws nearly half its industrial energy from electrons and also has the highest share of green electrons.
चीन अपनी औद्योगिक ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा इलेक्ट्रॉनों से लेता है और उसके पास हरित इलेक्ट्रॉनों का सबसे अधिक हिस्सा भी है।
- The United States and world average are around **12%** while India lags at just **7%**.
संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व औसत लगभग **12%** हैं जबकि भारत केवल **7%** पर पीछे है।
- China leads both in the quantity and the quality of electrons even as India remains molecule-dominated.
चीन इलेक्ट्रॉनों की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में आगे है, जबकि भारत अब भी अणु-प्रधान बना हुआ है।
- At the economy level, China, the U.S. and the European Union (EU) all sit near one-third electrification.
अर्थव्यवस्था स्तर पर, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ सभी लगभग एक-तिहाई विद्युतीकरण के पास हैं।
- But China deliberately channels far more electrons into industry than its peers.
लेकिन चीन अपने समकक्षों की तुलना में उद्योग में जानबूझकर कहीं अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करता है।
- This reflects strategic intent.
यह रणनीतिक मंशा को दर्शाता है।
- As the world's manufacturing hub, China ensures that factories enjoy reliable power and a rising share of clean electricity.
दुनिया के विनिर्माण केंद्र के रूप में, चीन सुनिश्चित करता है कि कारखानों को भरोसेमंद बिजली मिले और स्वच्छ बिजली की हिस्सेदारी लगातार बढ़े।
- That positioning directly strengthens export competitiveness in markets where carbon intensity is increasingly scrutinised.



यह स्थिति सीधे उन बाजारों में निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करती है जहाँ कार्बन तीव्रता की जाँच लगातार बढ़ रही है।

China's transformation; where India is चीन का रूपांतरण; भारत कहाँ है

- **China's playbook** has been to build the grid, then build electron-first industry.
चीन की रणनीति यह रही है कि पहले ग्रिड बनाया जाए, फिर इलेक्ट्रॉन-प्रथम उद्योग बनाया जाए।
- China's surge did not happen by accident.
चीन की तेज़ प्रगति संयोग से नहीं हुई।
- Since **2010**, it has poured massive capital into generation, ultra-high-voltage transmission, flexible substations and grid-scale storage.
2010 से, उसने उत्पादन, अति-उच्च-वोल्टेज पारेषण, लचीले उपकेंद्रों और ग्रिड-स्तरीय भंडारण में भारी पूँजी लगाई है।
- The result is a structural tilt toward electrons across industry.
इसका परिणाम उद्योग में इलेक्ट्रॉनों की ओर संरचनात्मक झुकाव के रूप में सामने आया।
- In steel, electric-arc-furnace (EAF) steel rose from about **44 million tonnes** in **2010** to **106 million tonnes** in **2024**.
इस्पात में, विद्युत-चाप-भट्टी (ईएएफ) इस्पात **2010** में लगभग **44 million tonnes** से बढ़कर **2024** में **106 million tonnes** हो गया।
- Though only approximately **15%** of output, this shift has been policy driven through scrap recycling and preferential tariffs.
यद्यपि यह उत्पादन का केवल लगभग **15%** है, फिर भी यह बदलाव कबाड़ पुनर्चक्रण और तरजीही शुल्कों के माध्यम से नीति-प्रेरित रहा है।
- In cement, China has electrified grinding mills, materials handling and deployed digital controls.
सीमेंट में, चीन ने ग्राइंडिंग मिलों, सामग्री प्रबंधन का विद्युतीकरण किया है और डिजिटल नियंत्रण लागू किए हैं।
- Waste-heat-recovery systems typically contribute **30-35 kWh per tonne** of cement.
अपशिष्ट-ऊष्मा-पुनर्प्राप्ति प्रणालियाँ सामान्यतः प्रति टन सीमेंट **30-35 kWh** का योगदान देती हैं।
- Calcination emissions remain unavoidable, making CCUS pilots essential. India can follow a similar pathway.
कैल्सीनेशन उत्सर्जन अपरिहार्य बने रहते हैं, जिससे सीसीयूएस पायलट आवश्यक हो जाते हैं। भारत भी ऐसा ही मार्ग अपना सकता है।
- China's lesson is simple — electrify what can be electrified today, and reserve molecules only for processes that have no immediate alternative.
चीन का सबक सरल है — जो आज विद्युतीकृत किया जा सकता है उसे विद्युतीकृत करो, और अणुओं को केवल उन प्रक्रियाओं के लिए बचाकर रखो जिनका कोई तत्काल विकल्प नहीं है।
- What is India's starting line like?
भारत की शुरुआती स्थिति कैसी है?
- India has doubled grid capacity in a decade and is a global leader in annual solar additions.
भारत ने एक दशक में ग्रिड क्षमता दोगुनी की है और वार्षिक सौर वृद्धि में वैश्विक अग्रणी है।
- Yet, industrial electrons remain around **one-quarter** of energy use, and green electrons just **7%-8%** of total energy.
फिर भी, औद्योगिक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उपयोग का लगभग **one-quarter** ही हैं, और हरित इलेक्ट्रॉन अंतिम ऊर्जा का केवल **7%-8%** हैं।
- Three factors explain this gap.
इस अंतर को तीन कारक समझाते हैं।
- First, legacy reliance on on-site combustion locks in molecule use.
पहला, स्थल पर दहन पर पुरानी निर्भरता अणुओं के उपयोग को जकड़ देती है।
- Second, uneven power quality and reliability discourage firms from designing all-electric processes.
दूसरा, बिजली की असमान गुणवत्ता और विश्वसनीयता कंपनियों को पूर्ण-विद्युतीय प्रक्रियाएँ बनाने से हतोत्साहित करती है।
- Third, policy focuses more on generation than on electrifying industrial processes.
तीसरा, नीति औद्योगिक प्रक्रियाओं के विद्युतीकरण की तुलना में उत्पादन पर अधिक ध्यान देती है।



- This is a road map to an electron-first industrial decade.
यह इलेक्ट्रॉन-प्रथम औद्योगिक दशक का एक रोडमैप है।
- In steel, India already produces approximately **30%** of steel through EAFs, as compared to approximately **70%** in the U.S.
इस्पात में, भारत पहले ही ईएफ के माध्यम से लगभग **30%** इस्पात बनाता है, जबकि अमेरिका में यह लगभग **70%** है।
- Improving scrap collection, standardisation and trading platforms can lift this share rapidly.
कबाड़ संग्रह, मानकीकरण और व्यापार मंचों में सुधार इस हिस्सेदारी को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं।
- Renewable-linked EAF incentives are essential, especially with the EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) targeting steel.
नवीकरणीय-सम्बद्ध ईएफ प्रोत्साहन आवश्यक हैं, विशेषकर तब जब यूरोपीय संघ की कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था (सीबीएएम) इस्पात को लक्षित कर रही है।
- In cement, support pilots of electrified kilns, large-scale waste-heat recovery and carbon capture, utilisation, and storage (CCUS) hubs.
सीमेंट में, विद्युतीकृत भट्टियों के पायलट, बड़े पैमाने पर अपशिष्ट-ऊष्मा पुनर्प्राप्ति और कार्बन पकड़, उपयोग, तथा भंडारण (सीसीयूएस) केंद्रों को समर्थन दें।
- Target a **20% reduction** in molecule use per tonne this decade while preparing CCUS.
इस दशक में प्रति टन अणुओं के उपयोग में **20% reduction** का लक्ष्य रखें, साथ ही सीसीयूएस की तैयारी करें।
- On micro, small and medium enterprises (MSMEs), most MSMEs run on coal boilers and diesel gensets.
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संदर्भ में, अधिकांश इकाइयाँ कोयला बॉयलरों और डीज़ल जनरेटर सेटों पर चलती हैं।
- Transition requires concessional finance for electric boilers and induction furnaces, pooled procurement of renewable power purchase agreements, and technical assistance.
संक्रमण के लिए विद्युत बॉयलरों और प्रेरण भट्टियों हेतु रियायती वित्त, नवीकरणीय बिजली खरीद समझौतों की संयुक्त खरीद, और तकनीकी सहायता की आवश्यकता है।
- When it comes to **digitalisation**, this must be embedded in new industrial clusters.
डिजिटलीकरण के संदर्भ में, इसे नए औद्योगिक क्लस्टरों में समाहित किया जाना चाहिए।
- Advanced controls reduce power waste, enable demand response, and generate auditable carbon data demanded by global buyers.
उन्नत नियंत्रण ऊर्जा की बर्बादी घटाते हैं, मांग-प्रतिक्रिया को सक्षम करते हैं, और वैश्विक खरीदारों द्वारा माँगे गए सत्यापन योग्य कार्बन आँकड़े उत्पन्न करते हैं।
- **Why does this matter beyond climate?**
यह जलवायु से आगे क्यों महत्वपूर्ण है?
- First, competitiveness as global buyers increasingly demand low-carbon manufacturing.
पहला, प्रतिस्पर्धात्मकता क्योंकि वैश्विक खरीदार लगातार कम-कार्बन विनिर्माण की माँग कर रहे हैं।
- Green electrons embedded in supply chains decide contract outcomes.
आपूर्ति श्रृंखलाओं में समाहित हरित इलेक्ट्रॉन अनुबंध के परिणाम तय करते हैं।
- Second, security. Shifting heat and motion to domestically produced electricity reduces exposure to imported oil and gas price shocks.
दूसरा, सुरक्षा। ऊष्मा और गति को घरेलू रूप से उत्पादित बिजली पर स्थानांतरित करना आयातित तेल और गैस के मूल्य झटकों के प्रति जोखिम घटाता है।
- Third, sovereignty. Industry can locate based on skills and logistics, not fuel availability.
तीसरा, संप्रभुता। उद्योग कौशल और लॉजिस्टिक्स के आधार पर स्थान चुन सकता है, ईंधन उपलब्धता के आधार पर नहीं।

The new industrial race नई औद्योगिक दौड़

- The global race is not just electrons versus molecules, but also about green electrons versus grey electrons.
वैश्विक दौड़ केवल इलेक्ट्रॉन बनाम अणु नहीं है, बल्कि हरित इलेक्ट्रॉन बनाम धूसर इलेक्ट्रॉन की भी है।
- **China** has acted strategically.
चीन ने रणनीतिक रूप से कार्य किया है।



- Although its economy-wide electrification (**31%**) is similar to the U.S. (**32%**) and the EU (**34%**), it prioritised industry — nearly half of industrial energy is electrified, with a higher green share than peers.
यद्यपि इसकी अर्थव्यवस्था-व्यापी विद्युतीकरण (**31%**) अमेरिका (**32%**) और यूरोपीय संघ (**34%**) के समान है, फिर भी इसने उद्योग को प्राथमिकता दी — औद्योगिक ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा विद्युतीकृत है, और समक्षों की तुलना में हरित हिस्सेदारी अधिक है।
- This design gives **China** a durable manufacturing edge.
यह व्यवस्था **चीन** को टिकाऊ विनिर्माण बढ़त देती है।
- **India** must absorb this lesson.
भारत को यह सबक आत्मसात करना चाहिए।
- Without a rapid rise in green electrons, **India** risks **CBAM** penalties and lost export opportunities, but with bold action, it can seize the initiative.
हरित इलेक्ट्रॉनों में तेज़ वृद्धि के बिना, **भारत** को **कार्बन सीमा समायोजन तंत्र** के दंड और निर्यात अवसरों के नुकसान का जोखिम है, लेकिन साहसिक कार्रवाई के साथ वह पहल कर सकता है।
- Policy must aim not just for megawatts of renewables, but for megawatt-hours actually flowing into industry.
नीति को केवल नवीकरणीय ऊर्जा के मेगावाट तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उद्योग में वास्तव में प्रवाहित हो रहे मेगावाट-घंटों पर भी केंद्रित होना चाहिए।
- **India** should launch a national mission on industrial electrification, significantly raise annual grid investment, mandate electrification in new industrial parks, and provide targeted MSME finance.
भारत को औद्योगिक विद्युतीकरण पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करना चाहिए, वार्षिक ग्रिड निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि करनी चाहिए, नए औद्योगिक पार्कों में विद्युतीकरण को अनिवार्य करना चाहिए, और लक्षित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम वित्त उपलब्ध कराना चाहिए।
- The next industrial revolution will be written in electrons, not molecules.
अगली औद्योगिक क्रांति इलेक्ट्रॉनों में लिखी जाएगी, अणुओं में नहीं।
- **India** must ensure that it is not left behind.
भारत को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पीछे न रह जाए।



Why the government has increased capital spending for the defence sector

The government has announced a record ₹7,84,678 crore for defence in the FY2026-27 Union Budget, addressing urgent military needs amid geopolitical tensions. The increased funding aims to enhance domestic capabilities and support the Aatmanirbhar Bharat initiative

GS III: Economy
Anushka Saxena

MOB

For years, the Indian defence budget has been caught in a classic “guns versus butter” dilemma, attempting to balance the costs of human-power with the need for technological modernisation. If the figures released in the FY2026-27 Union Budget are any indication, the government seems to be turning the tanker. The FY2027 defence budget, hovering near the substantial ₹8 lakh crore mark, has the potential to meet the demands of a rapidly modernising military force and an expanding domestic defence industry.

The capital outlay
The absolute figures are robust. The total Ministry of Defence (MoD) expenditure has touched a historic high, nearing ₹7,84,678 crore for FY27 (Budget Estimate). This allocation accounts for 14.7% of the Government's total expenditure at the BE stage for FY27. While this percentage is a slight dip from the Revised Estimates (RE) of 14.8% in FY26, it marks a significant stabilisation compared to the lean years of FY21 and FY22, when the defence share had shrunk to nearly 13.2%. If New Delhi can continue to floor defence spending at 14-15% of the central spending pie, it would gradually insulate national security imperatives from the vagaries of fiscal consolidation. The spectre of ballooning revenue expenditure, specifically salaries and pensions, has haunted defence planners for decades. Because capital outlay is the fund that goes into modernisation and the purchases of big-ticket items such as armour, ships or aircraft, it is expected that revenue and capex components of a defence budget are at parity.

Utilising and diversifying
In the FY27 BE, the share of capital outlay has risen to 27.9% of the total defence budget. This is a remarkable jump from the 24.9% figure for FY23 (Actuals) and the 24.5% figure for FY20 (Actuals). In absolute terms, the capital outlay for FY27 BE stands at a staggering ₹2,19,306 crore. To put this in perspective, just a year prior, the BE for FY26 had allocated ₹1,80,000 crore for capital expenses. A year-on-year leap of nearly ₹40,000 crore in the capital head is hence significant. Not to mention, at the RE stage in FY26, more capex has been demanded, which is

A significant increase

This is the first full Union Budget presented after Operation Sindoor, and the financial footprint of the conflict is likely reflected in the budget for defence. The four-day intense aerial engagement following the Pahalgam terror attack exposed the need for a stockpile of armament

CHART 1: Defence expenditure as a percentage of total government expenditure (in ₹ crore) across select years, and at various Budget stages





CHART 2: Comparative figures of capital outlay (in ₹ crore) across the past four years, and at various Budget stages

Years/ Stages	FY 23	FY 24	FY 25	FY 26	FY 27
BE (₹ crore)	1,52,369	1,62,600	1,72,000	1,80,000	2,19,306.47
RE (₹ crore)	1,50,000	1,57,228.2	1,59,500	1,86,454.2	-
Actuals (₹ crore)	1,42,940.01	1,54,256.28	1,59,768.4	-	-

CHART 3: Composition of MoD budget/ expenditures in percentage across select years, and at various Budget stages



a departure from previously observed trends wherein the BE is always higher than the RE, and the RE is nearly always higher than the Actuals (see Chart 2).

However, to understand fully the urgency in these figures, one must acknowledge three main aspects of capex utilisation and the geopolitical realities of the past few years.

Firstly, this is the first full Union Budget presented after Operation Sindoor, and the financial footprint of that conflict is likely reflected in the demands for grants. The four-day intense aerial engagement following the Pahalgam terror attack exposed the need for a stockpile of

armament such as precision-guided munitions (PGMs) and loitering munitions, especially if the Indian armed forces are to prepare for a two-front challenge involving both China and Pakistan. In that regard, it is possible that the 21.8% jump in capital outlay is not just for future-proofing, but also for the replenishment of the war wastage reserves depleted in May 2025.

Secondly, the expenditure trends may also signal that Emergency Procurement (EP) – once an adhoc measure after the Galwan incident – has now been effectively institutionalised. The rapid spike in capital spending suggests that the

fast-track mechanism used to induct anti-drone systems and long-range vectors during Operation Sindoor could now be the standard operating procedure for critical technologies.

Thirdly, a critical nuance often missed in headline numbers is the concept of committed liabilities. These are payments due in the upcoming FY for contracts signed in previous years. Historically, a major chunk of capex has been absorbed by past obligations, which could include, say, installments for S-400s, Rafales, or Akash missiles signed years ago, leaving less untied cash for new signings. The hope is that the capex hike breaks this cycle, given that for the Government to be able to sign contracts for the procurement of, say, Advanced Medium Light Aircraft, or Project 751 diesel-electric submarines, funds worth at least 10-15% of the total contract amount must be free for the agreement to go through in FY27.

Composition statistics

Finally, an assessment of the composition of the total MoD expenditure shows that the share of pensions in the total defence budget has contracted to 21.8% in FY27, down from 26% in FY20. Similarly, the salary component has moderated to 22.4%, a sharp decline from the 30% high seen in FY20.

While the absolute pension bill remains high, its share of the pie is shrinking, likely a preliminary result of the Agranpath scheme and a deliberate policy to cap revenue expenditure. With ₹2.19 lakh crore in the kitty for capital expenditure, the pressure now shifts to the domestic industry. The government has reserved nearly 75% of the capital acquisition budget for the domestic industry under the Aatmanirbhar Bharat initiative.

The challenge, however, remains absorption capacity. Can defence public sector undertakings and private sector players deliver on time? The “Buy Indian-IDD” (Indigenously Designed, Developed, and Manufactured) route of the Defence Acquisition Procedure is valuable, but recent operational urgencies dictate that delivery timelines cannot be flexible.

The heavy allocation suggests that the government is confident in the maturity of the Indian defence industrial base, and so, business performance, too, should reflect commitment to the act.

Anushka Saxena is a Staff Research Analyst at the Takshashila Institution.

Why the government has increased capital spending for the defence sector सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजीगत खर्च क्यों बढ़ाया है

- For years, the **Indian defence budget** has been caught in a classic “guns versus butter” dilemma, attempting to balance the costs of human-power with the need for technological modernisation. वर्षों से, **भारतीय रक्षा बजट “तोप बनाम घी”** की पारंपरिक दुविधा में फँसा रहा है, जिसमें मानव संसाधन की लागत और तकनीकी आधुनिकीकरण की आवश्यकता के बीच संतुलन साधने का प्रयास किया जाता रहा है।
- If the figures released in the **FY2026-27 Union Budget** are any indication, the government seems to be turning the tanker. यदि **वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट** में जारी आँकड़े कोई संकेत देते हैं, तो सरकार दिशा बदलती हुई प्रतीत होती है।
- The **FY2027 defence budget**, hovering near the substantial **₹8 lakh crore** mark, has the potential to meet the demands of a rapidly modernising military force and an expanding



domestic defence industry.

वित्त वर्ष 2027 का रक्षा बजट, लगभग **₹8 लाख करोड़** के बड़े स्तर के आसपास, तेजी से आधुनिक हो रही सैन्य शक्ति और विस्तार कर रहे घरेलू रक्षा उद्योग की मांगों को पूरा करने की क्षमता रखता है।

The capital outlay पूँजीगत व्यय

- The absolute figures are robust.
कुल आँकड़े मजबूत हैं।
- The total **Ministry of Defence (MoD)** expenditure has touched a historic high, nearing **₹7,84,678 crore** for **FY27 (Budget Estimate)**.
कुल **रक्षा मंत्रालय (एमओडी)** का व्यय ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुँच गया है, **वित्त वर्ष 27 (बजट अनुमान)** के लिए लगभग **₹7,84,678 करोड़**।
- This allocation accounts for **14.7%** of the Government's total expenditure at the BE stage for FY27.
यह आवंटन **वित्त वर्ष 27** के बजट अनुमान चरण में सरकार के कुल व्यय का **14.7%** है।
- While this percentage is a slight dip from the Revised Estimates (RE) of **14.8%** in **FY26**, it marks a significant stabilisation compared to the lean years of **FY21** and **FY22**, when the defence share had shrunk to nearly **13.2%**.
यद्यपि यह प्रतिशत **वित्त वर्ष 26** के संशोधित अनुमान (आरई) के **14.8%** से थोड़ा कम है, फिर भी यह **वित्त वर्ष 21** और **वित्त वर्ष 22** के कमजोर वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय स्थिरीकरण दर्शाता है, जब रक्षा हिस्सेदारी घटकर लगभग **13.2%** रह गई थी।
- If New Delhi can continue to floor defence spending at **14-15%** of the central spending pie, it would gradually insulate national security imperatives from the vagaries of fiscal consolidation यदि नई दिल्ली केंद्रीय व्यय के हिस्से में रक्षा खर्च को **14-15%** पर बनाए रख सकती है, तो यह धीरे-धीरे राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं को वित्तीय समेकन की अनिश्चितताओं से सुरक्षित कर देगा।
- The spectre of ballooning revenue expenditure, specifically salaries and pensions, has haunted defence planners for decades.
बढ़ते राजस्व व्यय का साया, विशेषकर वेतन और पेंशन, दशकों से रक्षा योजनाकारों को परेशान करता रहा है।
- Because capital outlay is the fund that goes into modernisation and the purchases of big-ticket items such as armour, ships or aircraft, it is expected that revenue and capex components of a defence budget are at parity.
क्योंकि पूँजीगत व्यय वह निधि है जो आधुनिकीकरण और बख्तरबंद वाहन, जहाज या विमान जैसी बड़ी खरीद में जाती है, इसलिए अपेक्षा रहती है कि रक्षा बजट में राजस्व और पूँजीगत घटक समान स्तर पर हों।

Utilising and diversifying उपयोग और विविधीकरण

- In the **FY27 BE**, the share of capital outlay has risen to **27.9%** of the total defence budget.
वित्त वर्ष 27 के बजट अनुमान में पूँजीगत व्यय की हिस्सेदारी कुल रक्षा बजट की **27.9%** तक बढ़ गई है।
- This is a remarkable jump from the **24.9%** figure for **FY23 (Actuals)** and the **24.5%** figure for **FY20 (Actuals)**.
यह **वित्त वर्ष 23 (वास्तविक)** के **24.9%** और **वित्त वर्ष 20 (वास्तविक)** के **24.5%** की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है।
- In absolute terms, the capital outlay for **FY27 BE** stands at a staggering **₹2,19,306 crore**.
कुल राशि के रूप में, **वित्त वर्ष 27 (बजट अनुमान)** के लिए पूँजीगत व्यय एक बहुत बड़े **₹2,19,306 करोड़** पर है।
- To put this in perspective, just a year prior, the BE for **FY26** had allocated **₹1,80,000 crore** for capital expenses.
तुलना के लिए, केवल एक वर्ष पहले **वित्त वर्ष 26** के बजट अनुमान में पूँजीगत खर्च हेतु **₹1,80,000 करोड़** आवंटित किए गए थे।
- A year-on-year leap of nearly **₹40,000 crore** in the capital head is hence significant.
इसलिए पूँजी शीर्ष में वर्ष-दर-वर्ष लगभग **₹40,000 करोड़** की छलांग महत्वपूर्ण है।
- Not to mention, at the RE stage in **FY26**, more capex has been demanded, which is a departure from previously observed trends wherein the BE is always higher than the RE, and



the RE is nearly always higher than the Actuals (see Chart 2).

इसके अलावा, **वित्त वर्ष 26** के संशोधित अनुमान चरण में अधिक पूँजीगत व्यय की मांग की गई है, जो पहले देखे गए रुझानों से अलग है जहाँ बजट अनुमान हमेशा संशोधित अनुमान से अधिक होता है, और संशोधित अनुमान लगभग हमेशा वास्तविक व्यय से अधिक होता है (चार्ट 2 देखें)।

- However, to understand fully the urgency in these figures, one must acknowledge three main aspects of capex utilisation and the geopolitical realities of the past few years.
हालांकि, इन आँकड़ों की तात्कालिकता को पूरी तरह समझने के लिए पूँजीगत व्यय के उपयोग और पिछले कुछ वर्षों की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के तीन मुख्य पहलुओं को स्वीकार करना होगा।
- Firstly, this is the first full Union Budget presented after **Operation Sindoor**, and the financial footprint of that conflict is likely reflected in the demands for grants.
पहला, यह **ऑपरेशन सिंदूर** के बाद प्रस्तुत पहला पूर्ण केंद्रीय बजट है, और उस संघर्ष की वित्तीय छाप अनुदानों की मांग में परिलक्षित होने की संभावना है।
- The four-day intense aerial engagement following the **Pahalgam terror attack** exposed the need for a stockpile of armament such as **precision-guided munitions (PGMs)** and loitering munitions, especially if the Indian armed forces are to prepare for a two-front challenge involving both **China** and **Pakistan**.
पहलगाम आतंकी हमले के बाद चार दिनों के तीव्र हवाई संघर्ष ने **सटीक निर्देशित हथियार** और मंडराने वाले हथियार जैसे आयुध भंडार की आवश्यकता उजागर की, विशेषकर यदि भारतीय सशस्त्र बलों को **चीन** और **पाकिस्तान** दोनों से जुड़े दो मोर्चों की चुनौती के लिए तैयारी करनी है।
- In that regard, it is possible that the **21.8%** jump in capital outlay is not just for future-proofing, but also for the replenishment of the war wastage reserves depleted in **May 2025**.
इस संदर्भ में, यह संभव है कि पूँजीगत व्यय में **21.8%** की वृद्धि केवल भविष्य की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि **मई 2025** में घटे युद्ध अपव्यय भंडार की पुनर्भरण के लिए भी हो।
- Secondly, the expenditure trends may also signal that **Emergency Procurement (EP)** — once an adhoc measure after the **Galwan** incident — has now been effectively institutionalised.
दूसरा, व्यय प्रवृत्तियाँ यह भी संकेत दे सकती हैं कि **आपातकालीन खरीद (ईपी)** — जो कभी **गलवान** घटना के बाद एक तदर्थ उपाय था — अब प्रभावी रूप से संस्थागत रूप ले चुका है।
- The rapid spike in capital spending suggests that the fast-track mechanism used to induct anti-drone systems and long-range vectors during **Operation Sindoor** could now be the standard operating procedure for critical technologies.
पूँजीगत व्यय में तेज़ वृद्धि संकेत देती है कि **ऑपरेशन सिंदूर** के दौरान ड्रोन-रोधी प्रणालियों और लंबी दूरी के साधनों को शामिल करने के लिए उपयोग किया गया त्वरित प्रक्रिया तंत्र अब महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बन सकता है।
- Thirdly, a critical nuance often missed in headline numbers is the concept of **committed liabilities**.
तीसरा, मुख्य आँकड़ों में अक्सर छूट जाने वाला एक महत्वपूर्ण पहलू **प्रतिबद्ध देनदारियों** की अवधारणा है।
- These are payments due in the upcoming FY for contracts signed in previous years.
ये वे भुगतान हैं जो पूर्व वर्षों में किए गए अनुबंधों के लिए आगामी वित्त वर्ष में देय होते हैं।
- Historically, a major chunk of capex has been absorbed by past obligations, which could include, say, installments for **S-400s**, **Rafales**, or **Akash missiles** signed years ago, leaving less untied cash for new signings.
ऐतिहासिक रूप से, पूँजीगत व्यय का बड़ा हिस्सा पिछली देनदारियों में खप गया है, जिसमें वर्षों पहले किए गए **एस-400**, **राफेल**, या **आकाश मिसाइल** जैसे अनुबंधों की किस्तें शामिल हो सकती हैं, जिससे नए अनुबंधों के लिए कम अवबंधनित धन बचता है।
- The hope is that the capex hike breaks this cycle, given that for the Government to be able to sign contracts for the procurement of say, **Advanced Medium Light Aircraft**, or **Project 75I diesel-electric submarines**, funds worth at least **10-15%** of the total contract amount must be free for the agreement to go through in FY27.
आशा यह है कि पूँजीगत व्यय में वृद्धि इस चक्र को तोड़ेगी, क्योंकि सरकार को उदाहरण के लिए **उन्नत मध्यम हल्के विमान** या **परियोजना 75आई डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों** की खरीद हेतु अनुबंध करने के लिए कुल अनुबंध राशि का कम से कम **10-15%** धन मुक्त होना चाहिए ताकि **वित्त वर्ष 27** में समझौता हो सके।

Composition statistics

संरचना संबंधी आँकड़े



- Finally, an assessment of the composition of the total **MoD** expenditure shows that the share of pensions in the total defence budget has contracted to **21.8%** in **FY27**, down from **26%** in **FY20**.
अंत में, कुल **रक्षा मंत्रालय** व्यय की संरचना का आकलन दर्शाता है कि कुल रक्षा बजट में पेंशन की हिस्सेदारी **वित्त वर्ष 27** में घटकर **21.8%** रह गई है, जो **वित्त वर्ष 20** में **26%** थी।
- Similarly, the salary component has moderated to **22.4%**, a sharp decline from the **30%** high seen in **FY20**.
इसी प्रकार, वेतन घटक घटकर **22.4%** हो गया है, जो **वित्त वर्ष 20** में देखे गए **30%** के उच्च स्तर से तीव्र गिरावट है।
- While the absolute pension bill remains high, its share of the pie is shrinking, likely a preliminary result of the **Agnipath** scheme and a deliberate policy to cap revenue expenditure.
जबकि कुल पेंशन बिल अब भी उच्च बना हुआ है, लेकिन बजट में उसका हिस्सा घट रहा है, जो संभवतः **अग्निपथ** योजना का प्रारंभिक परिणाम और राजस्व व्यय को सीमित करने की जानबूझकर अपनाई गई नीति है।
- With **₹2.19 lakh crore** in the kitty for capital expenditure, the pressure now shifts to the domestic industry.
पूँजीगत व्यय के लिए **₹2.19 लाख करोड़** उपलब्ध होने से अब दबाव घरेलू उद्योग पर स्थानांतरित हो जाता है।
- The government has reserved nearly **75%** of the capital acquisition budget for the domestic industry under the **Aatmanirbhar Bharat** initiative.
सरकार ने **आत्मनिर्भर भारत** पहल के तहत पूँजी अधिग्रहण बजट का लगभग **75%** घरेलू उद्योग के लिए आरक्षित किया है।
- The challenge, however, remains absorption capacity.
हालांकि, चुनौती अब भी अवशोषण क्षमता ही है।
- Can defence public sector undertakings and private sector players deliver on time?
क्या रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और निजी क्षेत्र के खिलाड़ी समय पर आपूर्ति कर सकते हैं?
- The **“Buy Indian-IDDm”** (Indigenously Designed, Developed, and Manufactured) route of the Defence Acquisition Procedure is valuable, but recent operational urgencies dictate that delivery timelines cannot be flexible.
रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया का **“भारतीय खरीद-अंतर्जात रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित”** मार्ग मूल्यवान है, लेकिन हाल की परिचालन तात्कालिकताएँ बताती हैं कि आपूर्ति समय-सीमा लचीली नहीं हो सकती।
- The heavy allocation suggests that the government is confident in the maturity of the Indian defence industrial base, and so, business performance, too, should reflect commitment to the act.
भारी आवंटन यह दर्शाता है कि सरकार भारतीय रक्षा औद्योगिक आधार की परिपक्वता पर आश्वस्त है, और इसलिए व्यावसायिक प्रदर्शन में भी उस प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब दिखना चाहिए।

Indian, U.S. industry bodies and leaders laud tariff deal

भारतीय, अमेरिकी उद्योग निकायों और नेताओं ने टैरिफ समझौते की सराहना की

- Some, however, cautioned against taking the news of the **India-U.S. deal** for granted, although the **U.S. President’s tariff cut announcement** was largely welcomed as a **positive development**.
हालांकि, कुछ लोगों ने **भारत-अमेरिका समझौते** की खबर को हल्के में न लेने की चेतावनी दी, भले ही **अमेरिकी राष्ट्रपति की टैरिफ कटौती की घोषणा** को बड़े पैमाने पर **सकारात्मक विकास** के रूप में स्वागत किया गया।
- Industry bodies and leaders in both **India** and the **U.S.**, and across sectors, have welcomed the announcement of a deal between the two countries under which tariffs on India are set to be slashed from the current **50%** to **18%**.
भारत और **अमेरिका** दोनों में विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग निकायों और नेताओं ने दोनों देशों के बीच हुए उस समझौते की घोषणा का स्वागत किया है, जिसके तहत भारत पर टैरिफ को वर्तमान **50%** से घटाकर **18%** किया जाना तय है।



- **U.S. President Donald Trump** took to social media network 'Truth Social' late on **Monday night** to announce that he had spoken on the phone to his "greatest friend" **Prime Minister Narendra Modi** and that they had agreed to a deal to reduce India's tariffs
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात सोशल मीडिया नेटवर्क 'ट्रुथ सोशल' पर यह घोषणा की कि उन्होंने अपने "सबसे बड़े मित्र" **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी** से फोन पर बात की और भारत के टैरिफ कम करने के लिए एक समझौते पर सहमति बनी
- While **Mr. Trump's post** also specified various other commitments made by India, **Mr. Modi's post on X** regarding the call only confirmed the duty reduction, without either confirming or denying the other aspects
जहां **ट्रंप के पोस्ट** में भारत द्वारा किए गए कई अन्य वादों का भी उल्लेख था, वहीं कॉल को लेकर **एक्स पर मोदी के पोस्ट** में केवल शुल्क कटौती की पुष्टि की गई, अन्य पहलुओं की न पुष्टि की गई और न ही खंडन
- "The reduction in reciprocal tariffs — from earlier levels of around **50%** to **18%**, as indicated — would be a major game-changer for the competitiveness of Indian exports vis-à-vis other Asian suppliers," **S.C. Ralhan**, President of the **Federation of Indian Export Organisations (FIEO)**, said
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) के अध्यक्ष **एस.सी. रलहान** ने कहा, "जैसा संकेत दिया गया है, पारस्परिक टैरिफ में लगभग **50%** से घटकर **18%** की कमी भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए अन्य एशियाई आपूर्तिकर्ताओं के मुकाबले एक बड़ा गेम-चेंजर होगी"
- **Confederation of Indian Industry (CII)** President **Rajiv Memani** said that the deal would "enhance the global competitiveness of Indian products while catalysing manufacturing growth, employment creation, and the development of resilient supply chains"
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के अध्यक्ष **राजीव मेमानी** ने कहा कि यह समझौता "भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएगा और विनिर्माण वृद्धि, रोजगार सृजन तथा मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास को गति देगा"
- The deal was also welcomed by industry bodies in the **U.S.**
इस समझौते का **अमेरिका** के उद्योग निकायों ने भी स्वागत किया
- "We are optimistic that this is the first step toward a comprehensive trade agreement that will unlock even more private sector collaboration, and we look forward to reviewing the details of the deal," **U.S. Chamber of Commerce President and CEO Suzanne P. Clark** said
अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्ष और सीईओ **सुज़ैन पी. क्लार्क** ने कहा, "हमें उम्मीद है कि यह एक व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में पहला कदम है, जो निजी क्षेत्र के और अधिक सहयोग के अवसर खोलेगा, और हम समझौते के विवरण की समीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं"
- The **electronics sector**, which accounts for a large part of **India-U.S. trade**, is also expected to experience a "major catalyst" from the deal, according to **Ashok Chandak**, President of **SEMI India** and the **India Energy Storage Alliance**
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र, जो **भारत-अमेरिका व्यापार** का एक बड़ा हिस्सा है, को भी इस समझौते से "बड़े उत्प्रेरक" का लाभ मिलने की उम्मीद है, **सेमी इंडिया** और **इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस** के अध्यक्ष **अशोक चंदक** के अनुसार
- **Namit Joshi**, Chairman of **Pharmexcil**, said that the **U.S.** currently accounts for **30–40%** of the pharmaceutical industry's total revenue
फार्मेक्सिल के अध्यक्ष **नमित जोशी** ने कहा कि वर्तमान में **अमेरिका** दवा उद्योग के कुल राजस्व का **30–40%** हिस्सा है
- "This deal fosters greater market access for Indian generics and biosimilars, strengthening India's position as the global leader in affordable medicines," **Mr. Joshi** said
जोशी ने कहा, "यह समझौता भारतीय जेनेरिक और बायोसिमिलर दवाओं के लिए बेहतर बाजार पहुंच को बढ़ावा देता है और किफायती दवाओं में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है"
- The **Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC)** said that the **U.S. tariffs of 50%** had "sharply" disrupted trade flows to **U.S.**, which accounted for **31%** of the sector's exports in **2024-25**
जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (GJEPC) ने कहा कि **50% अमेरिकी टैरिफ** ने **अमेरिका** को होने वाले व्यापार प्रवाह को "तेजी से" बाधित किया, जो **2024-25** में इस क्षेत्र के **31%** निर्यात का हिस्सा था
- "This [the tariff cut] is poised to revive demand and stabilise operations," the body added
संस्था ने कहा, "यह टैरिफ कटौती मांग को पुनर्जीवित करने और संचालन को स्थिर करने के लिए तैयार है"
- Apart from industry bodies, the heads of several **Indian companies** reacted positively to the deal, saying it would positively impact them



उद्योग निकायों के अलावा, कई **भारतीय कंपनियों** के प्रमुखों ने भी इस समझौते पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कहा कि इसका उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा

- “The **Aditya Birla Group** is the largest Indian investor in the **U.S.**, and we see this agreement help shape more resilient supply chains, unlock manufacturing opportunities and drive long-term economic competitiveness in both the **U.S. and India**,” **Kumar Mangalam Birla**, Chairman of the Aditya Birla Group said
आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष **कुमार मंगलम बिड़ला** ने कहा, “**आदित्य बिड़ला समूह अमेरिका** में सबसे बड़ा भारतीय निवेशक है, और हम इस समझौते को अधिक मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण, विनिर्माण अवसरों को खोलने और **अमेरिका और भारत** दोनों में दीर्घकालिक आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने वाला मानते हैं”
- He added that the Group was committed to expanding its presence and investments in the **U.S.**
उन्होंने यह भी कहा कि समूह **अमेरिका** में अपनी उपस्थिति और निवेश बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है
- **Sudarshan Venu**, Chairman of the **TVS Motor Company**, highlighted the fact that now India has trade deals with key economic partners around the world
टीवीएस मोटर कंपनी के अध्यक्ष **सुदर्शन वेणु** ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि अब भारत के पास दुनिया भर के प्रमुख आर्थिक साझेदारों के साथ व्यापार समझौते हैं
- “In a challenging global environment, predictability and openness in trade help Indian industry scale, innovate and create jobs,” **Mr. Venu** said
वेणु ने कहा, “एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में, व्यापार में पूर्वानुमेयता और खुलापन भारतीय उद्योग को विस्तार, नवाचार और रोजगार सृजन में मदद करता है”
- **Anish Shah**, Group CEO & Managing Director of the **Mahindra Group**, said that the reduction in tariffs on Indian exports, along with the commitment to progressively lower tariff and non-tariff barriers, “will boost growth momentum and improve the predictability businesses need to invest with confidence”
महिंद्रा समूह के ग्रुप सीईओ और प्रबंध निदेशक **अनिश शाह** ने कहा कि भारतीय निर्यात पर टैरिफ में कमी, साथ ही टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को क्रमिक रूप से कम करने की प्रतिबद्धता, “विकास की गति बढ़ाएगी और व्यवसायों को आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आवश्यक पूर्वानुमेयता में सुधार करेगी”

Cautionary note चेतावनी भरा संकेत

- **Rahul Ahluwalia**, Founder-Director of the **Foundation for Economic Development**, however, cautions that the deal should not be taken for granted
हालांकि, **फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट** के संस्थापक-निदेशक **राहुल आहलूवालिया** ने चेतावनी दी कि इस समझौते को हल्के में नहीं लेना चाहिए
- “**Trump** has shown a great deal of unpredictability in following through. Our most urgent task should remain internal reforms that help our regulations and institutions become globally competitive.”
“**ट्रंप** ने वादों को लागू करने में काफी अनिश्चितता दिखाई है। हमारा सबसे जरूरी कार्य आंतरिक सुधारों पर ही केंद्रित रहना चाहिए, ताकि हमारे नियम और संस्थान वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बन सकें।”

Trump's push to channel crude oil into India won't defy market forces भारत में कच्चा तेल भेजने की ट्रंप की कोशिश बाजार शक्तियों को नहीं झुका पाएगी

- India, previously a major buyer, only cut off its purchases after **Mr. Trump** in **March** imposed a **25% tariff** on countries buying **Venezuelan oil**; despite **Mr. Trump's latest effort**, Venezuelan crude is unlikely to play a dominant role in **Asia's refinery system** anytime soon – particularly **India's**
भारत, जो पहले एक बड़ा खरीदार था, ने केवल तब खरीद बंद की जब **मार्च** में **ट्रंप** ने **वेनेजुएला के तेल** को खरीदने वाले देशों पर **25% टैरिफ** लगाया; **ट्रंप के ताज़ा प्रयास** के बावजूद, वेनेजुएला का कच्चा तेल निकट भविष्य में **एशिया की रिफाइनरी प्रणाली** में प्रमुख भूमिका निभाने की संभावना नहीं रखता – खासकर **भारत** में



- **President Donald Trump's push to channel U.S. and Venezuelan crude oil into India** as part of a broad **trade deal** will run up against the hard reality of **global oil economics**
व्यापक **व्यापार समझौते** के हिस्से के रूप में **अमेरिकी और वेनेजुएला के कच्चे तेल को भारत में भेजने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश वैश्विक तेल अर्थशास्त्र की कठोर वास्तविकता से टकराएगी**
- The **U.S. President** and **Indian Prime Minister Narendra Modi** on **Monday** announced the trade deal following lengthy and often tense negotiations, though details remain limited
अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लंबी और अक्सर तनावपूर्ण बातचीत के बाद इस व्यापार समझौते की घोषणा की, हालांकि विवरण अभी सीमित हैं
- Under the deal, the **U.S.** cut its tariff on imports of **Indian goods** to **18%** from **25%**, while **Mr. Modi** committed to buy more than **\$500 billion-worth** of **U.S. energy, technology, agricultural and other products**, **Mr. Trump** said in a social media post
समझौते के तहत **अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया, जबकि मोदी ने \$500 अरब से अधिक के अमेरिकी ऊर्जा, तकनीक, कृषि और अन्य उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई, ऐसा ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा**
- India, the world's **third-biggest oil importer**, also agreed to stop buying **Russian oil** and to buy "much more" oil from the **U.S.** and potentially **Venezuela**, **Mr. Trump** said
दुनिया का **तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका तथा संभावित रूप से वेनेजुएला से "काफी अधिक" तेल खरीदने पर भी सहमति जताई, ऐसा ट्रंप ने कहा**
- The trade deal appears to advance **two key White House objectives**
यह व्यापार समझौता **व्हाइट हाउस के दो प्रमुख उद्देश्यों** को आगे बढ़ाता हुआ दिखता है
- First, the administration wants to revitalize **Venezuela's oil industry** after Washington took effective control of the country's crumbling oil sector, following the **U.S. seizure of President Nicolas Maduro last month**
पहला, प्रशासन **वेनेजुएला के तेल उद्योग को पुनर्जीवित करना चाहता है, जब पिछले महीने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिकी गिरफ्तारी** के बाद वाशिंगटन ने देश के चरमराते तेल क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण ले लिया
- Second, **Trump** aims to tighten pressure on **Moscow** by squeezing **Russian crude** out of **Asia**, one of the country's last major markets after **Western sanctions** were imposed on its exports that help to fund **Russia's war in Ukraine**
दूसरा, **ट्रंप का उद्देश्य मॉस्को पर दबाव बढ़ाना है, ताकि रूसी कच्चे तेल को एशिया से बाहर किया जा सके, जो पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस के बचे हुए बड़े बाजारों में से एक है और जो यूक्रेन युद्ध के लिए धन जुटाने में मदद करता है**
- The deal thus underscores **Mr. Trump's readiness** to intervene in markets and use **U.S. geopolitical muscle** to pursue his strategic goals, but the President may find that **markets won't play ball**
यह समझौता बाजारों में हस्तक्षेप करने और अपने रणनीतिक लक्ष्यों के लिए **अमेरिकी भू-राजनीतिक शक्ति का उपयोग करने की ट्रंप की तत्परता को रेखांकित करता है, लेकिन राष्ट्रपति को लग सकता है कि बाजार उनके इशारों पर नहीं चलते**

Venezuela oil limits वेनेजुएला तेल की सीमाएँ

- The **U.S.** and the interim **Venezuelan government** have taken several steps towards reviving the country's dilapidated energy sector
अमेरिका और अंतरिम वेनेजुएला सरकार ने देश के जर्जर ऊर्जा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कई कदम उठाए हैं
- Those steps include agreeing to sell up to **50 million barrels** of Venezuelan crude, mostly to **U.S. refiners**; changing the country's **hydrocarbon laws** to attract foreign investment; and easing some sanctions on **Caracas's oil exports**
इन कदमों में वेनेजुएला के कच्चे तेल के **50 मिलियन बैरल तक की बिक्री पर सहमति, मुख्य रूप से अमेरिकी रिफाइनरों को; विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए हाइड्रोकार्बन कानूनों में बदलाव; और काराकास के तेल निर्यात पर कुछ प्रतिबंधों में ढील शामिल है**
- Asia might initially appear to be a natural partner in this endeavour
शुरुआत में **एशिया** इस प्रयास में एक स्वाभाविक साझेदार प्रतीत हो सकता है



- **China** accounted for over half of **Venezuela's crude exports** last year as independent refiners mopped up the heavily discounted oil facing **U.S. sanctions**
पिछले वर्ष **वेनेजुएला के कच्चे तेल के आधे से अधिक निर्यात** का हिस्सा **चीन** के पास था, क्योंकि स्वतंत्र रिफाइनरों ने **अमेरिकी प्रतिबंधों** के कारण भारी छूट वाले तेल को खरीदा
- India, previously a major buyer, only cut off its purchases after **Mr. Trump in March** imposed a **25% tariff** on countries buying **Venezuelan oil**
भारत, जो पहले एक बड़ा खरीदार था, ने केवल तब खरीद बंद की जब **मार्च** में **ट्रंप** ने **वेनेजुएला के तेल** को खरीदने वाले देशों पर **25% टैरिफ** लगाया
- But despite **Mr. Trump's latest effort**, Venezuelan crude is unlikely to play a dominant role in **Asia's refinery system** anytime soon – particularly **India's**
लेकिन **ट्रंप के नवीनतम प्रयास** के बावजूद, वेनेजुएला का कच्चा तेल निकट भविष्य में **एशिया की रिफाइनरी प्रणाली** में प्रमुख भूमिका निभाने की संभावना नहीं रखता – विशेष रूप से **भारत** में
- For one thing, Venezuelan production remains limited at around **9,00,000 barrels per day (bpd)** and will take months, if not years, to recover
एक कारण यह है कि वेनेजुएला का उत्पादन लगभग **9,00,000 बैरल प्रति दिन (bpd)** तक सीमित है और इसे पुनः बढ़ने में महीनों, यदि वर्षों नहीं, तो समय लगेगा
- Exports jumped to about **8,00,000 bpd** in **January** from **4,98,000 bpd** in **December**, shipping data showed, after **Maduro's capture** and the end of an oil blockade
शिपिंग आंकड़ों के अनुसार, **मादुरो की गिरफ्तारी** और तेल नाकेबंदी के अंत के बाद निर्यात **दिसंबर के 4,98,000 bpd** से बढ़कर **जनवरी** में लगभग **8,00,000 bpd** हो गया
- But state-run energy company **PDVSA's** partners and traders would need to keep exports rising to draw down millions of barrels still in storage and fully reverse earlier output cuts
लेकिन सरकारी ऊर्जा कंपनी **PDVSA** के साझेदारों और व्यापारियों को भंडारण में पड़े लाखों बैरल तेल को निकालने और पहले किए गए उत्पादन कटौती को पूरी तरह पलटने के लिए निर्यात लगातार बढ़ाना होगा
- The bigger issue, however, is simple **economics**
हालांकि, बड़ा मुद्दा सरल **अर्थशास्त्र** का है
- Venezuelan oil was only attractive to Asian buyers because it was **sanctioned** – and thus sold at steep **discounts**
वेनेजुएला का तेल एशियाई खरीदारों के लिए केवल इसलिए आकर्षक था क्योंकि वह **प्रतिबंधित** था – और इसलिए भारी **छूट** पर बेचा जाता था
- When several cargoes of heavy-grade Venezuelan crude were recently offered to Asia buyers at a **\$5 per barrel discount** to global benchmark **Brent futures**, the buyers balked
जब हाल ही में भारी श्रेणी के वेनेजुएला कच्चे तेल के कई कार्गो एशियाई खरीदारों को वैश्विक बेंचमार्क **ब्रेंट फ्यूचर्स** से **\$5 प्रति बैरल** की छूट पर पेश किए गए, तो खरीदार पीछे हट गए
- Traders said the markdown was not enough to make the heavy sulfurous crude competitive with other grades
व्यापारियों ने कहा कि यह कटौती भारी सल्फर युक्त कच्चे तेल को अन्य ग्रेड के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थी
- Unless Venezuela sharply ramps up its output to the point that **U.S. refiners** cannot absorb the excess volumes, leading Venezuelan producers to offer larger discounts, Asia will likely remain a marginal market for **Caracas**
जब तक वेनेजुएला अपना उत्पादन इतना नहीं बढ़ाता कि **अमेरिकी रिफाइनर** अतिरिक्त मात्रा को नहीं समेट पाएं और वेनेजुएला उत्पादकों को अधिक छूट देनी पड़े, तब तक **एशिया काराकास** के लिए एक सीमांत बाजार ही रहेगा
- India is also unlikely to be a major buyer of **U.S. oil** anytime soon
भारत भी निकट भविष्य में **अमेरिकी तेल** का बड़ा खरीदार बनने की संभावना नहीं रखता
- The country's price-sensitive buyers purchased an average of only **320,000 bpd** of U.S. oil last year, the equivalent of around **\$7.5 billion**
पिछले वर्ष भारत के कीमत-संवेदनशील खरीदारों ने औसतन केवल **3,20,000 bpd** अमेरिकी तेल खरीदा, जिसकी कीमत लगभग **\$7.5 अरब** थी
- Significantly increasing that appears unfeasible due to higher **freight costs** and the reality that the **U.S. government** has limited power over **market dynamics**
उच्च **परिवहन लागत** और इस वास्तविकता के कारण कि **अमेरिकी सरकार** का बाजार की गतिशीलता पर सीमित नियंत्रण है, इसमें बड़ी वृद्धि अव्यवहारिक लगती है



Abrupt changes अचानक बदलाव

- India, the top buyer of discounted **Russian crude** after the **2022 invasion of Ukraine**, pared back its purchases after **Mr. Trump** doubled duties on imports from India to **50%** in **August** to pressure New Delhi to curb its Russian oil buying
2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रियायती **रूसी कच्चे तेल** का सबसे बड़ा खरीदार भारत था, लेकिन **अगस्त** में **ट्रंप** द्वारा भारत से आयात पर शुल्क **50%** तक दोगुना करने के बाद भारत ने अपनी खरीद घटा दी
- This was compounded by **U.S. sanctions** on Russia's top two oil companies, **Rosneft** and **Lukoil**, in **October**, and the **European Union's** new restrictions on fuels produced from Russian crude
यह स्थिति **अक्टूबर** में रूस की दो शीर्ष तेल कंपनियों **रोसनेफ्ट** और **लुकोइल** पर **अमेरिकी प्रतिबंधों**, और **यूरोपीय संघ** द्वारा रूसी कच्चे तेल से बने ईंधन पर नए प्रतिबंधों से और गंभीर हो गई
- The **White House** said on **Monday** that as part of the trade deal, the **U.S.** will drop the additional **25% tariff**
व्हाइट हाउस ने **सोमवार** को कहा कि व्यापार समझौते के तहत **अमेरिका** अतिरिक्त **25% टैरिफ** हटा देगा
- Yet India still imported **1.2 million bpd** of Russian crude in **January**, over **one-fifth** of its total imports, according to **Kpler data**
फिर भी **केप्लर डेटा** के अनुसार, **जनवरी** में भारत ने **12 लाख bpd** रूसी कच्चा तेल आयात किया, जो उसके कुल आयात का **पांचवां हिस्सा** से अधिक है
- January's imports are significantly lower than the **2025 average** of **1.7 million bpd**, and Indian officials have indicated purchases could drop further
जनवरी का आयात **2025 के औसत 17 लाख bpd** से काफी कम है, और भारतीय अधिकारियों ने संकेत दिया है कि खरीद और घट सकती है
- Despite the trade deal, **Russian flows to India** are unlikely to disappear
व्यापार समझौते के बावजूद, **भारत में रूसी तेल का प्रवाह** समाप्त होने की संभावना नहीं है
- The price incentives are simply too powerful
मूल्य प्रोत्साहन अत्यधिक मजबूत हैं
- Russian oil is today being offered at a discount of over **\$20 to Brent**, the steepest markdown since **April 2023**, according to **Reuters calculations**
रॉयटर्स की गणनाओं के अनुसार, रूसी तेल आज **ब्रेंट** से **\$20 से अधिक** की छूट पर पेश किया जा रहा है, जो **अप्रैल 2023** के बाद की सबसे बड़ी कटौती है
- While Indian refiners heavily dependent on exports to **Europe**, such as **Reliance Industries' Jamnagar complex**, are unlikely to resume large Russian purchases because of **EU rules**, refiners serving India's domestic market may find it difficult to resist such steep discounts
जहां **यूरोप** को निर्यात पर निर्भर भारतीय रिफाइनर, जैसे **रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जामनगर परिसर**, **ईयू नियमों** के कारण बड़े पैमाने पर रूसी खरीद फिर से शुरू करने की संभावना नहीं रखते, वहीं घरेलू बाजार को सेवा देने वाले रिफाइनरों के लिए इतनी भारी छूट को नज़रअंदाज़ करना कठिन हो सकता है
- New Delhi could also choose to push back against **U.S. pressure** to help lower **domestic fuel prices**, a priority for any government facing political and economic constraints
नई दिल्ली **घरेलू ईंधन कीमतें** कम रखने के लिए **अमेरिकी दबाव** का विरोध भी कर सकती है, जो राजनीतिक और आर्थिक सीमाओं का सामना कर रही किसी भी सरकार के लिए प्राथमिकता होती है
- The **U.S.** may wield significant political and economic influence over partners such as **India**
अमेरिका भारत जैसे साझेदारों पर महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव रख सकता है
- But that doesn't mean **Trump** can steer crude flows in a highly liquid, transparent **global oil market**
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि **ट्रंप** एक अत्यधिक तरल और पारदर्शी **वैश्विक तेल बाजार** में कच्चे तेल के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं
- Price signals**, not political directives, will determine where **Russian and Venezuelan barrels** end up
मूल्य संकेत, न कि राजनीतिक निर्देश, यह तय करेंगे कि **रूसी और वेनेजुएला के बैरल** आखिरकार कहां पहुंचेंगे